

J. No. 5

No. 1/19/2013-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare
(Desk E)

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
the 20th February, 2014

To,
The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi-110064

Subject : Amendment to CCS (Pension) Rules, 1972 - Notification regarding

Sir,

I am to forward herewith a copy of Notification in duplicate (English & Hindi version) on the above subject and to request that the same may be published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, sub-section (i).

2. It is further requested that 100 spare copies of the Printed version of the Notification may kindly be sent to this Department.
3. This issues with the approval of Joint Secretary (Pension).

Encl: As Above.

Yours faithfully,

Sujasha Choudhury
(Sujasha Choudhury)
Deputy Secretary
Phone: 24635979

Copy to:

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, etc.
3. Legislative Department (Official Languages Wing)

Sujasha Choudhury
(Sujasha Choudhury)
Deputy Secretary
Phone: 24635979



DY NO 5935A II
19/03/2014

Adm

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2014

G.S.R..... - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, for Form 3, Form 5, Form 7, Form 8, Form 10, Form 11, Form 12, Form 13, Form 14, Form 18, Form 19, Form 20, Form 21, Form 22 and Form 24, the following Forms shall respectively be substituted, namely:-

“FORM 3
[See rule 54 (12)]
Details of Family

1. Name of the Government servant
2. Designation
3. Date of birth
4. Details of the members of family as on _____

[illegible]

I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of the
e any addition or alteration.

Signature of Government servant

Date :

1. - The original Form submitted by the Government servant is to be retained. All additions/alterations are to be recorded in this Form under the signature of Head of Office in Col 7. No Form will substitute the original Form. However, the retiring Government servant should submit details of family afresh along with Form 5.

— The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family pension or not) and siblings (brothers and sisters) may be given.

- The Head of Office shall indicate the date of receipt of communication regarding addition or removal in the family in the 'Remarks' column. The fact regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the 'Remarks' column.

Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.

FORM 5

[See rules 59 (1) (c) & 61(1)]

Also see rules 5 (2), 12, 13 (3), 14 (1) and 15 (3) of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981]

Particulars to be obtained by the Head of Office from the retiring Government servant eight months before the date of his retirement

1. Name
2. (a) Permanent Account Number for Income Tax (PAN)
(b) Aadhaar No., if available
3. Specify a few marks of identification, not less than two, if possible
(i)
(ii)
4. Height
5. Address after retirement/permanent address for future correspondence:
6. Bank Account No. to which pension is to be credited:
(Joint account, either or survivor, with the spouse)
(In case the Head of Office is satisfied that it is not possible for the retiring Government servant to open a joint account for reasons beyond his/her control, this requirement may be relaxed).
7. Name of the Branch of Bank through which pension is to be drawn
(a) BSR code of the branch
(b) IFSC code of the branch
8. Indicate whether family pension is also admissible from any other source - Military or State Government and/or a Public Sector Undertaking/Autonomous body/Local Fund under the Central or a State Government -

I desire to commute % (up to 40%) of my superannuation pension in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.

I am aware that future good conduct of the pensioner/family pensioner shall be an implied condition for every grant of pension/family pension and its continuance.

Closures as per check-list are enclosed.

Signature:

Designation:

Ministry/Department/Office:

Mobile No.:

Email ID:

Note 1: Commutation of pension is optional. Item 9 may be struck off if the retiring Government servant does not desire to commute a percentage of pension.

Note 2: A separate application for commutation of superannuation pension in Form 1-A of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 is required to be submitted in case the retiring Government servant desires to apply for Commutation of Pension after submission of this form but three months before retirement.

Note 3: It is in the interest of the Government servant to provide E-mail ID and Mobile number, which facilitates future correspondence.

Check List of Documents to be submitted along with Form 5

S.No.	Description of documents to be enclosed	Whether enclosed
1. (a)	Two specimen signatures (to be furnished in a separate sheet)	
(b)	Additional information (Only in case of an illiterate or disabled Government servant):- Two slips each bearing the left hand thumb and finger impressions duly attested may be furnished by a person who is not literate and cannot sign his name. If such a Government servant on account of physical disability is unable to give left hand thumb and finger impressions he may give thumb and finger impressions of the right hand. Where a Government servant has lost both the hands, he may give his toe impressions. Impressions should be duly attested by a Gazetted Government servant.	
2.	Three copies of passport size joint photograph with wife or husband. Where it is not possible for a Government servant to submit a photograph with his wife or her husband, he or she may submit separate photographs. The photographs shall be attested by the Head of Office. Three copies of passport size photograph of disabled child/siblings/dependent parents, if applicable. (To be attested by the Head of Office)	
3.	Details of the family in Form 3.	
4.	Undertaking in Form 26, for those who served in Security-related or Intelligence Organisations referred to in rule 8 of the CCS (Pension) Rules, 1972	
5.	Written statement for counting of period of service under rule-59(1)-(a), if any	
6.	Undertaking for refunding any excess payment made by the pension disbursing Bank	
7.	Nomination for gratuity, CGEIS and GPF in Common Nomination Form	
8.	Nomination for arrears of pension and commuted value of pension (if applied for commutation of pension) in Common Nomination Form	

Form for assessing Pension/Family Pension and Gratuity
[To be sent six months before the Date of Retirement to the PAO]

PART - I

1. Name of the retiring Government employee
2. Father's/Husband's name
3. PAN No.
4. Height & Marks of Identification
5. Date of Birth
6. Service to which he/she belongs (indicate name of organised service, if any, otherwise say, General Central Service)
7. Particulars of post held at the time of retirement -
 - (a) Name of the Office
 - (b) Post held
 - (c) Scale of pay/Pay Band & Grade pay of the post
 - (d) Basic Pay / pay in the Pay Band & Grade pay
 - (e) Whether the appointment mentioned above was under Government or outside the Government on foreign service terms
 - (f) If on foreign service, scale of pay/ pay band, pay in the pay band & grade pay of the post in the parent department
8. Whether declared substantive in any post under the Central Government
9. Date of beginning of service
10. Date of ending of service
11. Cause of ending of service (please tick one)-
 - (a) Superannuation (Rule 35)
 - (b) Voluntary retirement on being declared surplus (Rule 29-A)
 - (c) Voluntary/premature retirement at the initiative of the Government servant [under Rules 48, 48-A and FR 56 (k)]
 - (d) Premature retirement at the initiative of the Government [Rule-48 or FR 56 (j)]
 - (e) Permanent absorption in public sector undertaking/autonomous body (Rule 37 or 37-A/37-B)
 - (f) Invalidment on medical ground (Rule 38)
 - (g) Due to abolition of post (Rule 39)
 - (h) Compulsory retirement (Rule 40)

(i) Removal/dismissal from service (Rules 24 and 41)

(j) Death

12. In the case of compulsory retirement, the orders of the competent authority whether pension may be allowed at full rates or at reduced rates and in case of reduced rates, the percentage at which it is to be allowed (Please see Rule 40)

13. In case of removal/dismissal from service whether orders of competent authority have been obtained for grant of compassionate allowance and if so, at what rate (Please see Rule 41)

14. Particulars relating to military service, if any -

(a) Period of military service

(b) Terminal benefits drawn/being drawn for military service

(c) Whether opted for counting of military service towards civil pension (Rule 19)

(d) If answer to (c) above is in the affirmative, whether the terminal benefits have been refunded

15. Particulars relating to service in autonomous body/State Government, if any -

(a) Particulars of service :

Name of Organisation	Post held	Period of service		
		From	To	Period

(b) Whether the above service is to be counted for pension in the Government

(c) Whether the autonomous organisation has discharged its pensionary liability to the Central Government

16. Whether any departmental or judicial proceedings in terms of rule 9 of the CCS (Pension) Rules, 1972 are pending against the retiring employee. (If yes, in terms of Rule 69, provisional pension will be admissible and gratuity will be withheld till the conclusion of departmental or judicial proceedings and issue of final orders.)

17. Qualifying service -

(a) Details of omission, imperfection or deficiencies in the Service Book which have been ignored [under Rule 59 (1) (b) (ii)]

(b) Period not counting as qualifying service -

(i) Boy service (2nd proviso to Rule 13)

(ii) Extraordinary leave not counting as qualifying service (Rule 21)

(iii) Periods of suspension not treated as qualifying service (Rule 23)

(iv) Interruptions in service [Rule 27 (1) (b) and Rule 28 (c)]

(v) Periods of foreign service with United Nations bodies for which United Nations pension has been availed (Rule 31)

vi) Any other period not treated as qualifying service
(give details)

1) Additions to qualifying service -

(i) Civil service (Rule 18)

(ii) Military service (Rule 19)

(iii) Benefit of service in an autonomous body

(d) Net qualifying service

(e) Qualifying service expressed in terms of completed six
monthly periods (Period of three months & above is to be
treated as completed six monthly period (Rule 49)

18. Emoluments -

(a) Emoluments in terms of Rule 33

(b) Emoluments drawn during ten months preceding
retirement-

From	To	Rate of Pay (including NPA)	Amount

Note: If the officer was on foreign service immediately preceding retirement, the
notional emoluments which he would have drawn under Government but for being
on foreign service may be mentioned in items (a) and (b) above (Note 7 below
Rule 33)

(c) Average emoluments (Rule 34)

(d) Emoluments or average emoluments (whichever
is higher) to be reckoned for pension (Rule 49)

(e) Emoluments reckoned for retirement
gratuity/death gratuity (Rule 50)

(f) Pay reckoned for family pension (Rule 54)

9) Amount of retirement gratuity/death gratuity (Rule
50) (Refer S. No.9 of Calculation Sheet)

1) Details of Government dues recoverable out of
gratuity -

(a) Licence fee for Government accommodation
[see sub-rules (2), (3) and (4) of Rule 72]

(b) Dues referred to in Rule 73

(c) Amount indicated by Directorate of Estates to be
withheld under sub-rule (5) of Rule 72

(a) Proposed pension/service gratuity (Rule 49)

(b) Proposed dearness relief on pension (as on the
date of retirement)

(c) Date from which pension is to commence (Rule
83)

22. Rate of Family Pension -

(a) Enhanced rate [Rule 54(3)]

... ..

(b) Period for which family pension will be payable at enhanced rate

... ..

(c) Ordinary rate [Rule 54(2)]

... ..

(d) Date from which ordinary rate of family pension will be payable

... ..

23. Commutation of pension -

(a) Whether simultaneously applied for commutation of pension with the pension application (applicable only in the case of those who retire on superannuation pension)

... ..

(b) The percentage of pension commuted

... ..

(c) Amount of monthly pension commuted

(d) Commuted value of pension

... ..

(e) Amount of residuary pension after deducting Commuted portion

... ..

(f) Date from which reduced pension is payable

... ..

(g) Date from which commuted pension is to be restored

24 Post-retirement address of the retiree

... ..

25. e-mail ID, if any

26 Mobile number, if any

Signature of the
Head of Office

**FORM 7 CHECK LIST FOR HEAD OF OFFICE FOR TIMELY PROCESSING OF
RETIREMENT DUES**

1.	Whether retiring employee is an allottee of Government accommodation	
2.	If retiring employee is not an allottee of Government accommodation, date on which 'No demand certificate' issued by the office	
3.	The date on which action initiated to obtain the 'No demand certificate' from the Directorate of Estates as provided in rule 57-	
4.	Date of receipt of 'No demand certificate' from Directorate of Estates	
5.	Date on which intimation regarding any recovery/withholding of amount from gratuity received from Directorate of Estates	
6.	Date on which action initiated to assess the service and emoluments qualifying for pension as provided in rule 59	
7.	Date on which action initiated to assess the Government dues other than the dues relating to allotment of Government accommodation as provided in rule 73 (1)	
8.	Date on which the retiring Government servant was furnished blank Form 5 along with a certificate regarding the length of qualifying service and the emoluments/ average emoluments proposed to be reckoned for retirement gratuity and pension.	
9.	Whether any objection received from the employee on the above certificate	
10.	Date on which the employee submitted his application for pension in Form 5	
11.	Whether nominations made in Common Nomination Forms for (i) death gratuity/retirement gratuity (ii) payment under CGEGIS (iii) amount of GPF, if applicable (iv) arrears of pension (v) commuted value of pension (if applicable)	
12.	(i) Has the retiring Government servant worked in any of the organisations mentioned in sub-rule 3A of rule 8 of the CCS (Pension) Rules, 1972 (ii) If yes, whether an undertaking in Form 26 has been obtained along with Form 5 and placed on record	
3.	Whether Details of family in Form 3 attached	
4.	Whether Medical certificate of incapacity (for invalid pension) attached.	
5.	Whether Statement of the savings effected and the reasons why employment could not be found elsewhere attached (if claim is for compensation pension or gratuity).	
6.	Whether the Orders of the competent authority regarding grant of pension in the cases of compulsory retirement/dismissal/removal against Item No. 12 or 13 placed on record.	
7.	Whether a statement indicating the reasons for delay in case the pension papers are not forwarded before six months of the retirement of Government servant attached.	
8.	Whether brief statement leading to reinstatement of the Government servant attached (In case the Government servant has been reinstated after having been suspended, compulsorily retired, removed or dismissed from service.)	

PART II

1. Date of receipt of pension papers by the Accounts Officer from Head of Office
2. Entitlements admitted -
 - A. Length of qualifying service
 - B. Pension -
 - (i) Class of pension
 - (ii) Amount of monthly pension
 - (iii) Date of commencement
 - C. Commutation of Pension -
 - (i) Portion of pension commuted, if any
 - (ii) Commuted value of portion of pension commuted, if any
 - (iii) Residuary pension after commutation
 - (iv) Date from which reduced pension is payable
 - (v) Date of restoration of commuted portion of pension subject to the pensioner continuing to live
 - D. Retirement/Death Gratuity -
 - (i) Total amount of gratuity
 - (ii) Amount to be adjusted towards arrears of licence fee for Government accommodation and licence fee for retention of Govt. accommodation beyond retirement (Rule 72(1) and 72(4))
 - (iii) Amount intimated by Directorate of Estates for being withheld on account of unassessed licence fee (Rule 72(5))
 - (iv) Amount to be adjusted towards Government dues other than those pertaining to Government accommodation (Rule 72)
 - (v) Net amount to be released immediately
 - E. Family Pension -
 - (i) At enhanced rate
 - (ii) Period for which Family Pension at enhanced rate is payable
 - (iii) At normal rate
3. Head of Account to which the amount of pension, retirement/death gratuity and family pension are to be debited

Accounts Officer

FORM 8

[See rule 61 (1)]

[Form of letter to the Accounts Officer forwarding the pension papers of a Government servant]

No

Government of India

Ministry of

Department/Office

Dated the

To

The Pay and Accounts Officer/ Accountant-General

Subject:- Pension papers of Shri/Smt./Kumari..... for authorisation of pension.

Sir,

I am directed to forward herewith the pension papers of Shri/Smt/ Kumari..... of this Ministry/ Department/Office for further necessary action.

2. The details of Government dues which will remain outstanding on the date of retirement of the Govt. servant and which need to be recovered out of the amount of retirement gratuity are indicated below -

- | | |
|--|-----|
| (a) Balance of the house-building or conveyance advance | Rs. |
| (b) Overpayment of pay and allowances including leave salary | Rs. |
| (c) Income Tax deductible at source under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) | Rs. |
| (d) Arrears of licence fee for occupation of Government accommodation | Rs. |
| (e) The amount of licence fee for the retention of Government accommodation for the permissible period beyond the date of retirement | Rs. |
| (f) amount to be withheld as per intimation of the Directorate of Estates under rule 72(5), if any | Rs. |
| (g) Any other assessed dues and the nature thereof | Rs. |

PENSION CALCULATION SHEET

- | | | |
|---|-------|-----|
| 1. Name | | ... |
| 2. Designation | | ... |
| 3. Scale of pay/Pay Band & Grade pay | | ... |
| 4. Date of birth | | ... |
| 5. Date of entry in the Government service | | ... |
| 6. Date of retirement | | ... |
| 7. Length of qualifying service reckoned for pension/gratuity (as indicated in PPO) | | ... |
| 8. Emoluments drawn during the last ten months | | ... |
| 9. (1) Emoluments or Average emoluments, whichever is more beneficial for pension (as indicated in PPO) | | ... |
| (2) Pension admissible (if qualifying service is ten years or more) | | ... |
| Calculations to be shown as follows :- | | |
| Emoluments or Average Emoluments/2 | | |
| 10. (1) Emoluments for gratuity (as indicated in PPO) | | ... |
| (2) Retirement gratuity admissible | | ... |
| Calculation to be shown as follows :- | | |
| Emoluments/4 x Qualifying Service (In completed six monthly period, not exceeding 66.) | | |
| 11. (1) Pay for Family Pension (as indicated in PPO) | | ... |
| (2) Family Pension admissible | | ... |
| Calculations to be shown as follows :- | | |
| (a) Ordinary Family Pension : | | |
| Pay X 30% subject to prescribed minimum and maximum | | |
| (b) Enhanced Family Pension : | | |
| Pay + 2 | | |
| [Subject to prescribed minimum and maximum as per Rule 54]. | | |

Head of Office

Countersigned by

PAO

Copy to:-Shri/Smt./Kumari.....
retiring Govt. Servant

FORM 10
[See rule 77(2)]

Form of letter to the nominee of a deceased Government servant where valid nomination for the grant of the death gratuity exists

No.

Government of India

Ministry of

Department/Office

Dated the

To

Subject:- Payment of death gratuity in respect of the late Shri/Smt./
Kumari

Sir/Madam,

I am directed to state that in terms of the nomination made by the late Shri/Smt. (Name & Designation) in the Office/Department/Ministry of a death gratuity is payable to his/her nominee(s). A copy of the said nomination is enclosed herewith.

I am to request that a claim for the grant of the gratuity may be submitted by you in the enclosed Form 12.

Should any contingency have happened since the date of making the nomination, so as to render the nomination invalid, in whole or in part, precise details of the contingency may kindly be stated.

Yours faithfully,

Head of Office

3. Your attention is invited to the enclosures forwarded herewith.

4. The receipt of this letter may be acknowledged and this Ministry/Department/Office informed that necessary instructions for the disbursement of pension have been issued to disbursing authority concerned, under intimation to the retiring Government servant/pensioner.

5. The retirement gratuity will be drawn and disbursed by this Ministry/Department/Office on receipt of authority from you. The outstanding Government dues as mentioned in paragraph 2 will also be recovered out of the retirement gratuity before making payment.

Your faithfully,

Head of Office.

List of enclosures

- 1) Form 5 and Form 7 duly completed, along with enclosures and checklists.
- 2) Service Book (date of retirement to be indicated in the service book).

NOTES

1. When initials or name of the Government servant are or is incorrectly given in the various records consulted, this fact should be mentioned in the letter.
2. If a Government servant is compulsorily retired from service and delay is anticipated in obtaining Form 5 from the Government servant, the Head of Office may forward the pension papers to the Accounts Officer without Form 5. The Form 5 may be sent as soon as it is obtained from the Government servant.

FORM 11
[See rule 77(2)]

Form of letter to the member or members of the family of a deceased Government servant where valid nomination for the grant of the death gratuity does not exist

No.....
Government of India
Ministry of.....
Department/Office.....

Dated the.....

To

Subject:- Payment of death gratuity in respect of the late
Shri/Smt.....

Sir/Madam,

I am directed to say that in terms of rules 50 and 51 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, a death gratuity is payable to the following members of the family of late Shri/Smt.....(Name and Designation), in the Office/Department/ Ministry of..... in equal shares :-

- (i) Wife/husband including judicially separated wife/husband.
- (ii) Sons }
- (i) Unmarried daughters } including step children and adopted children.
- (ii) widowed daughters }

2. In the event of there being no surviving member of the family as indicated above, the gratuity will be payable to the following members of the family in equal shares :-

- (i) Father }
- (ii) Mother } including adoptive parents in case of individuals whose personal law permits adoption;
- (iii) Brothers below the age of eighteen years and unmarried and widowed sisters including step brothers and step sisters;
- (iv) Married daughters; and
- (v) Children of a pre-deceased son.

3. It is requested that a claim for the payment of gratuity may be submitted in the enclosed Form 12 as soon as possible.

Yours faithfully,

Head of Office

FORM 12

[See rule 77(2)]

Form of application for the grant of death gratuity on the death of a Government servant

(To be filled in separately by each claimant and in case the claimant is minor, the Form should be filled in by the guardian on his/her behalf. Where there are more than one minor and one guardian for all of them, the guardian should claim gratuity in one Form on their behalf)

- 1 (i) Name of the deceased Government servant in respect of whom gratuity is being claimed
- (ii) Date of death of Government servant
- (iii) Office/Department/Ministry in which the deceased served last

2 Name and other details of claimant(s)-

Serial No.	Name	Date of birth	Relationship with the deceased Government servant	Postal Address

3. In case the claimant(s) is/are minor, details of guardian-

Name	Date of birth	Relationship with the minor	Relationship with the deceased Government servant	Postal Address

4. Details of Bank with Account No., IFSC Code for e-Payment/BCS

Signature/Thumb-
impression of the
claimant/guardian

Enclosures:

- (i) Death Certificate,
- (ii) Date of Birth Certificate, (in case of minors)
- (iii) Specimen signature/left hand thumb and finger impressions of the claimant/guardian.

Form of letter to family member of a deceased Government servant for grant of
Family Pension

No.....
Government of India
Ministry of.....
Department/Office.....

Dated the

To

.....
.....
.....

Subject:- Payment of Family Pension in respect of the late Shri/Smt.

Sir/Madam,

I am directed to state that in terms of rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, a family pension is payable to you in respect of the late Shri/Smt. (Name) and Designation) in the Office/Department/Ministry of

2. You are advised that a claim for the grant of Family Pension may be submitted in the enclosed Form 14.

3. In the event of death or ineligibility after re-marriage of the widow/widower, the Family Pension shall be granted to the eligible child or children, dependent parents or disabled siblings, if any, as per the provisions of rule 54 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

4. In the case of a childless widow, the family pension shall be payable even after re-marriage subject to the condition that her earning is less than or equal to the sum of minimum family pension under the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 and Dearness Relief on it.

Yours faithfully,

Head of Office

Form 14
 (See rules 77, 78 and 79)

Form of application for family pension on death of a Government servant/pensioner/family pensioner

- (i) Name of the Government servant in respect of whom family pension is being claimed
- (ii) Office/Department/Ministry served last
- (iii) Date of retirement of Government servant
- (iv) Date of death of Government servant/pensioner/family pensioner
- (v) PPO No. of Government servant/pensioner/family pensioner

2 Name and other details of claimant-

Name	Date of birth	Relationship with the deceased Government servant	Postal Address

3. In case the claimant is minor or suffering from disorder or disability of mind, including mental retardation, details of guardian/nominee, wherever applicable-

Name	Date of birth	Relationship with the minor/mentally disabled claimant	Relationship with the deceased Government servant	Postal Address

Details of surviving widow/widower, children, dependent parents and disabled siblings of the deceased Government servant / pensioner are enclosed in Form 3.

Account No., name and BSR code of Branch of Bank to which family pension is to be credited:

Other source of family pension - Military or State Government and/or a Public Sector Undertaking/ Autonomous body/Local Fund under the Central or a State Government, if any -

I am aware that future good conduct of the claimant/family pensioner shall be an implied condition for every grant of family pension and its continuance.

cl: As per the check-list.

Signature or left hand thumb impression of the claimant/guardian

Mobile/Telephone No.....

Permanent Account Number for Income Tax (PAN).....

Aadhar No., if available -

Signatures of two Witnesses with names and full addresses:

Note: Form 14 is not to be filled if the spouse had a joint account with the deceased pensioner. In such cases, family pension shall be allowed by the Pension Disbursing Authority on the basis of an application on plain paper. The permanently disabled children/siblings and dependent parents to whom family pension has been authorised in the PPO of the pensioner will submit this Form to the Pension Disbursing Authority.

FORM 18

[See rules 78(1), 80(1), 80(3), 80 (5), 86-B (1) and 86-B (5)]
Form for assessing and authorising the payment of family pension
and death gratuity when a Government servant dies while in service

PART I
Section I

1. Name of the deceased Government servant ...
2. Father's name ...
3. Husband's name in the case of female Government servant...
4. Date of birth (by Christian era) ...
5. Date of death (by Christian era) ...
6. Religion...
7. Particulars of post held at the time of death
 - (a) Name of the Office
 - (b) Post held substantively:
 - (c) Officiating post:
 - (d) Scale of pay/Pay Band & Grade Pay
 - (e) Basic Pay/Pay in Pay Band & Grade Pay
 - (f) Whether the last post held was under the Government or outside the Government on foreign service terms
 - (g) If on foreign service, scale of pay/pay band, pay in the pay band and grade pay of the post in the parent department
8. Date of beginning of service ...
9. (i) Total period of military service, if any, for which pension and/or gratuity was sanctioned:
(ii) Amount and nature of any pension/gratuity received for the military service
10. Particulars relating to service in autonomous body/State Government, if any -
 - (a) Particulars of service :

Name of Organization	Post held	Period of service		
		From	To	Period

- (b) Whether the above service is to be counted for gratuity in the Government
- (c) Whether the autonomous organization has discharged its pensionary liability to the Central Government

Amount and nature of any pension/gratuity received for previous civil service, if any

Service qualifying for death gratuity

- (a) Details of omission, imperfection or deficiencies in the Service Book which have been ignored [under rule 59 (1) (b) (ii)] -

1.	Two specimen signatures of claimant (to be furnished in a separate sheet) duly attested by a Gazetted Government servant. (Two slips each bearing the left hand thumb and finger impressions duly attested may be furnished by a person who is not literate to sign his name. If such an on account of physical disability is unable to give left hand thumb and finger impressions he/she may give thumb and finger impressions of the right hand. Where a Government servant has lost both the hands, he/she may give toe impressions. Impressions should be duly attested by a Gazetted Government servant.)	
2.	Two copies of passport size photographs of the claimant, duly attested	
3.	Two slips showing the particulars of height and personal identification marks duly attested by a Gazetted Govt.	
4.	Details of the family in Form 3.	
5.	Certificate(s) of age showing the dates of birth of the children. The certificates should be from the Municipal authorities or from the local panchayat or from the head of a recognized school or Central/State Board of Education.	
6.	Undertaking for refunding any excess payment made by the pension disbursing Bank	
7.	Specimen signature or left hand thumb and finger impressions of guardian duly attested, in the case of the guardian who is not literate enough to sign his or her name	
8.	Two attested copies of passport size photograph of the guardian/nominee	
9.	Descriptive roll of the guardian/nominee, Showing the particulars of height and identification marks, duly attested.	
10.	Copy of PPO of previous pensioner/family pensioner	
11.	Proof of permanent address of the guardian.	
12.	Copy of death certificate of the deceased employee or pensioner/previous family pensioner, if applicable.	
13.	Copy of document regarding ineligibility of previous family pensioner, if applicable.	

(b) Periods of non-qualifying service -

From

To

- (i) Interruption in service condoned under rules 27 & 28
- (ii) Extraordinary leave not qualifying for gratuity
- (iii) Period of suspension treated as non-qualifying
- (iv) Boy service (2nd proviso to rule 13)
- (v) Periods of foreign service with United Nations bodies for which United Nations pension has been availed (Rule 31)
- (vi) Any other service not treated as qualifying service

Total period of non-qualifying service

(c) Additions to qualifying service -

- (i) Civil service (Rule 18)
- (ii) Military service (Rule 19)
- (iii) Benefit of service in an autonomous body

Total period of qualifying service

(d) Net qualifying service

(e) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods (Period of three months & above is to be treated as completed six monthly period (Rule 49)

13. (a) Emoluments reckoning for death gratuity....
(b) Amount of death gratuity ...

14. Details of Government dues recoverable out of death gratuity -

- (i) Licence fee for occupation of Government accommodation [See rule 80-C]....
- (ii) Amount to be withheld as indicated by the Directorate of Estates [See rule 80-C (i) (v)]....
- (iii) Dues referred to in rule 80-C (2) ...

5. Net amount payable as death gratuity

5. Details of the nominee(s) to whom death gratuity is payable

S. No.	Name	Share in death gratuity	Date of Birth	Address	Relationship with deceased Govt. servant

Details of guardian/nominee who will receive payment of death gratuity in the case of nor/mentally disabled children

S. No.	Name of minor/ mentally disabled child	Name of guardian	Address of guardian	Relationship of guardian with deceased Govt. servant

18. The date on which intimation regarding the death of Government servant was received by the Head of Office

19. The date on which action initiated to -

- (i) obtain claim or claims from the claimants in the appropriate form for death gratuity and family pension as provided in rule 77;
- (ii) obtain the 'No demand certificate' from the Directorate of Estates as provided in rule 80-C (1);
- (iii) assess the Government dues other than the dues pertaining to occupation of Government accommodation as provided in rule 80-C (2);
- (iv) assess the service and emoluments qualifying for death gratuity and family pension as provided in rules 78 and 79.

20. Details of payment of Family Pension -

Rate of family pension	Amount of family pension	Period for which it is payable	
		From	To
Enhanced rate [if service rendered at the time of death is more than seven years as in rule 54 (3)]			
Ordinary rate			
Additional family pension, as on date, to old family pensioner, if any, under rule 54(2A)			

21. Persons to whom family pension is payable -

- (i) Name ...
- (ii) Relationship with the deceased Government servant ...
- (iii) Full postal address ...

22. Details of guardian who will receive payment of family pension in the case of minor/ mentally disabled children

S. No.	Name of minor/ mentally disabled child	Name of guardian	Address of guardian	Relationship of guardian with deceased Govt. servant

23. Head of Account to which death gratuity and family pension are debitable

Place

Dated the

Signature of
Head of Office

Section II

Details of provisional family pension and gratuity to be drawn and disbursed by the Head of Office in accordance with rule 80A.

Provisional family pension

Rs.....p.m.

Death Gratuity [amount mentioned in item 13(b) of Section I]

Rs.....

Less

(a) Licence fee recoverable from gratuity for occupation of Government accommodation [as in item 14(i) of Section I]

Rs.....

(b) Amount of gratuity to be held over pending receipt of information from the Directorate of Estates [as the item 14(ii) of Section I]

Rs.....

(c) Other Government dues as mentioned in item 14 (iii) of Section I

Rs.....

(d) Total of (a), (b) and (c)

Rs.....

Place

Dated, the

Signature of
Head of Office

Account Encasement

Section I

1. (i) Total period of qualifying service accepted for Death gratuity ...
- (ii) Total period of continuous service accepted for Family Pension

2. Net amount of death gratuity after adjusting Government dues

3. Amount and the period of tenability of Family Pension -

Rate of family pension	Amount of family pension	Period for which it is payable	
		From	To
Enhanced rate [if service rendered at the time of death is more than seven years as in rule 54 (3)]			
Ordinary rate			
Additional family pension, as on date, to old family pensioner, if any, under rule 54(2A)			

4. Date from which family pension is admissible:
5. Head of Account to which death gratuity and family pension are debitable:

Section II

1. Name of the deceased Government servant ...
2. Date of death of the Government servant ...
3. Date on which pension papers received by the Accounts Officer ...
4. Amount of family pension authorised ...
5. Amount of gratuity authorised ...
6. Date of commencement of family pension ...
7. Date on which payment of family pension and gratuity authorised ...
8. Amount recoverable from gratuity ...
9. Amount of gratuity held over pending receipt of 'No demand certificate'...

Place

Dated, the

Accounts Officer

Form of letter to the Accounts Officer forwarding papers for the
grant of family pension and death gratuity to the family of a
Government servant who dies while in service

No.....

Government of India

Ministry of.....

Department/Office.....

Dated the.....

To

The Pay and Accounts Officer

.....
.....

Subject:- Grant of family pension and death gratuity.

I am directed to say that
Shri/Smt./Kumari..... (Name
and designation) died on..... His family has become eligible for the
grant of family pension and death gratuity. Form 18 duly completed is forwarded
herewith for further necessary action.

2. Government dues in respect of the deceased Government servant will be recovered
out of the death gratuity as indicated in Section II of Part I of Form 18.

3. Your attention is invited to the enclosures forwarded herewith.

4. The receipt of this letter may be acknowledged and this
Ministry/Department/Office informed that necessary instructions for the disbursement
of family pension and death gratuity have been issued to the disbursing authority
concerned, under intimation to family pensioner.

Yours faithfully,

Head of Office

List of enclosures

1. Forms 14 (along with check-list) and Form 18 duly completed.
2. Service book (date of death to be indicated in the service book).

FORM 20

{See rule 81(2)}

Form of letter sanctioning Family Pension to a member (other than spouse)
on death of a retired Government servant

No.

Government of India

Ministry of

Department/Office

Dated the

To

The Pay and Accounts Officer

.....

.....

.....

Subject:- Grant of Family Pension to the child/children/dependent parents/disabled siblings.

Sir/Madam,

I am directed to say that Shri/Smt.
formerly (Designation) in this Ministry/Department was authorized
pension of Rs. with effect from on his/her retirement
from service.

2. Intimation has been received in this Ministry/Department/Office that Shri/Smt.
..... died on and that at the time of death left no widow/widower
but was survived by the following members of family:-

Sl. No.	Name	Date of Birth	Address	Relationship with deceased pensioner	Whether suffering from any disability	Marital status

3. In terms of rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, the amount of Family Pension has become payable to Shri/Kumari/Smt. The Family Pension will be payable, on behalf of the minor/mentally disabled child, to Shri/Smt. who is the nominee/guardian.

4. Sanction for the grant of Family Pension of Rs. per month to Shri/Kumari/Smt. is hereby accorded. The Family Pension will take effect from and will be tenable as per the provisions of sub-rule (6) of rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

The Family Pension is debitable to the Head

6. Your attention is invited to the enclosures forwarded herewith.

7. The receipt of this letter may be acknowledged and this Ministry/Department/Office informed that necessary instructions for the disbursement of family pension have been issued to the disbursing authority concerned, under intimation to family pensioner.

Yours faithfully,

Head of Office

List of enclosures-

1. Forms 14 (along with check-list)

FORM 21
[See rule 81(2)]

Form of letter sanctioning Family Pension to another member of family
on death or ineligibility of a recipient of Family Pension

No.....
Government of India
Ministry of.....
Department/Office.....

Dated the.....

To

The Pay and Accounts Officer
.....
.....

Subject:- Grant of Family Pension on death or ineligibility of a recipient of Family Pension.

Sir,

I am directed to say that Shri/Smt.
(relationship) of late Shri/Smt. formerly
..... (designation) in this Ministry/Department/Office was authorised the
payment of Family Pension of Rs with effect from
vide PPO No.....

2. Intimation has been received in this Ministry/Department/Office that Shri/Smt./Km.
..... died/ceased to be eligible for family pension on account of
..... on (date).

3. There are the following surviving members of family of the deceased Government
servant/pensioner:-

S. No.	Name	Date of Birth	Address	Relationship with deceased pensioner	Whether suffering from any disability	Marital status

In terms of rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, the amount of
family Pension has become payable to Shri/Kumari/Smt..... The
family Pension will be payable on behalf of the minor/mentally disabled child to Shri/Smt.
..... who is the nominee/guardian.

Sanction for the grant of Family Pension of Rs.....per month to
ri/Kumari/Smt. is hereby accorded. The Family Pension will
be effect from..... and will be tenable as per the provisions of sub-rule (6) of rule
of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

6. The Family Pension is debitable to the Head.....

7. Your attention is invited to the enclosures forwarded herewith.

8. The receipt of this letter may be acknowledged and this Ministry/Department/Office informed that necessary instructions for the disbursement of family pension have been issued to the disbursing authority concerned, under intimation to family pensioner.

Yours faithfully,

Head of Office

List of enclosures-

1. Form 14 (along with check-list)

FORM 22

[See rule 81(4)]

Form of application for the grant of Residuary Gratuity on the death of a pensioner
(To be filled in separately by each claimant)

1. (i) Name of the pensioner in respect of whom residuary gratuity is being claimed
- (ii) Office/Department/Ministry served last
- (iii) Date of retirement of pensioner
- (iv) Date of death of pensioner
- (v) PPO No. of pensioner, if applicable

2. Name and other details of claimant(s)-

S. No.	Name	Date of birth	Relationship with the deceased pensioner	Postal Address

3. In case the claimant(s) is/are minor or suffering from disorder or disability of mind, including mental retardation, details of guardian-

Name	Date of birth	Relationship with the minor	Relationship with the deceased pensioner	Postal Address

- Account No., name and BSR code of the Branch of Bank to which amount is to be credited:
- Amount of monthly pension (including ad hoc increase, if any)/service gratuity sanctioned to deceased pensioner:
- Amount of retirement gratuity received by the deceased pensioner:
- The amount of pension (including ad hoc increase, if any)/service gratuity drawn by the deceased till the date of death:
- If the deceased had commuted a portion of pension before his death, the commuted value of the pension:
- Total of items 6, 7 and 8:
- Amount of death gratuity equal to 12 times of the emoluments:
- The amount of residuary gratuity claimed, i.e., the difference between the amount shown against items 10 and 9:

cl: Specimen signatures/thumb impression
ly attested by a Gazetted Government servant

Signature or left-hand thumb impression of the claimant/guardian

Mobile/Telephone No.

Permanent Account Number for Income Tax (PAN).....

Aadhar No., if available -

natures of two Witnesses with names and full addresses:

years from the date of his retirement from service including compulsory retirement as a penalty and the sums actually received by him at the time of his death on account of such gratuity or pension including ad-hoc increase, if any, together with the death-cum-retirement gratuity and the commuted value of any portion of pension commuted by him are less than the amount equal to 12 times of his emoluments, a residuary gratuity equal to the deficiency becomes payable to the family. When a Government servant has retired before earning a pension, the amount of service gratuity should be indicated.

Note 2. Two specimen signatures duly attested by a Gazetted Government servant (to be furnished in a separate sheet). Two slips each bearing the left hand thumb and finger impressions duly attested may be furnished by a person who is not literate to sign his name. If such a person on account of physical disability is unable to give left hand thumb and finger impressions, he/she may give thumb and finger impressions of the right hand. Where a Government servant has lost both the hands, he/she may give toe impressions. Impressions should be duly attested by a Gazetted Government servant.

FORM 13
[See rule 38(3)]
Form of Medical Certificate

Certified that I/(We) have carefully examined AB son of CD, a in the His age by his own statement is.....years, and by appearance about.....years. I/(We) consider AB to be completely and permanently incapacitated for further service of any kind in the Department to which he belongs in consequence of (here state disease or cause).

(If the incapacity does not appear to be complete and permanent, the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made.)

"I am/We are of opinion that AB is fit for further service of a less laborious character than that which he had been doing/may, after resting for months, be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing."

Place
Dated the

Medical Authority

Form of certificate of verification of service for pension

No

Government of India

Ministry of

Department/Office

Dated the

Certificate

It is certified, in consultation with the Accounts Officer, that Shri/Smt./Km. (Name and Designation) has completed a qualifying service of years months, days as on (date), as per details given below. The service has been verified on the basis of his service documents and in accordance with the rules regarding qualifying service in force at present. The verification of service under sub-rules (1) and (2) of rule 32 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, shall be treated as final and shall not be re-opened except when necessitated by a subsequent change in the rules and orders governing the conditions under which the service qualifies for pension.

DETAILS OF QUALIFYING SERVICE

S. No.	Name of Ministry/Department/Office	From	To	Length of qualifying service
1.				
2.				
3.				

Signature & Stamp of Head of Office

To

Shri.....
(Name & Designation)"

[F.No.1/19/2013-P&PW (E)]

Sujasha Choudhury
(Sujasha Choudhury)
Deputy Secretary

Note: The principal rules were published vide number S.O.934, dated the 1st April, 1972. The Fourth Edition of the rules corrected up to July, 1988 was published in the year of 1988. The said rules were subsequently amended vide notifications given below:-

1. S.O.254, dated the 4th February, 1989
2. S.O.970, dated the 6th May, 1989
3. S.O.2467, dated the 7th October, 1989
4. S.O.899, dated the 14th April, 1990
5. S.O.1454, dated the 26th May, 1990
6. S.O.2329, dated the 8th September, 1990
7. S.O.3269, dated the 8th December, 1990
8. S.O.3270, dated the 8th December, 1990
9. S.O.3273, dated the 8th December, 1990
10. S.O.409, dated the 9th December, 1991
11. S.O.464, dated the 16th February, 1991
12. S.O.2287, dated the 7th September, 1991
13. S.O.2740, dated the 2nd November, 1991
14. GSR 677, dated the 7th December, 1991
15. GSR 399, dated the 1st February, 1992
16. GSR 55, dated the 15th February, 1992
17. GSR 570, dated the 19th December, 1992
18. S.O.258, dated the 13th February, 1993
19. S.O.1673, dated the 7th August, 1993
20. GSR 449, dated the 11th September, 1993
21. S.O.1984, dated the 25th September, 1993
22. GSR 389(E), dated the 18th April, 1994
23. S.O.1775, dated the 19th July, 1997
24. S.O.259, dated the 30th January, 1999
25. S.O.904(E), dated the 30th September, 2000
26. S.O.717(E), dated the 27th July, 2001
27. GSR 75(E), dated the 1st February, 2002
28. S.O.4000, dated the 28th December, 2002
29. S.O. 860(E), dated the 28th July, 2003
30. S.O. 1483 (E), dated the 30th December, 2003
31. S.O. 1487 (E), dated the 14th October, 2005
32. GSR 723(E), dated the 23rd November, 2006
33. S.O. 1821 (E), dated the 25th October, 2007
34. GSR 258 (E), dated the 31st March, 2008
35. S.O. 1028 (E), dated the 25th April, 2008
36. S.O. 829(E), dated the 12th April, 2010
37. GSR 176, dated the 11th June, 2011
38. GSR 928 (E), dated the 26th December, 2012
39. GSR 938 (E), dated the 27th December, 2012

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2014

सा.का.नि. _____ (अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में, प्ररूप 3, प्ररूप 5, प्ररूप 7, प्ररूप 8, प्ररूप 10, प्ररूप 11, प्ररूप 12, प्ररूप 13, प्ररूप 14, प्ररूप 18, प्ररूप 19, प्ररूप 20, प्ररूप 21, प्ररूप 22, प्ररूप 24, के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“प्रारूप 3
(नियम 54 (12) देखें)
कुटुंब के ब्यौरे

1. सरकारी सेवक का नाम.....
2. पदनाम.....
3. जन्म तारीख.....
4. कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे जेंरो कि ये को थे ।

क्रम सं०	कुटुंब सदस्यों के नाम	जन्म तारीख	अधिकारी के साथ नातेदारी	वैवाहिक प्रास्थिति	टिप्पणियां	कार्यालय अध्यक्ष के तारीख सहित हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

मैं _____ कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन अधिसूचित करके उपर्युक्त विशिष्टियों को अद्यतन रखने का पतावृद्धा गमन देता हूँ ।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

टिप्पण - 1 सरकारी सेवक द्वारा प्रस्तुत मूल प्रारूप को प्रतिधारित किया जाए । स्तंभ 7 में कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से सभी परिवर्धन/परिवर्तन इस प्रारूप में अभिलिखित किए जाएं तथा नया प्रारूप न भरा जाए । सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को कुटुंब के ब्यौरे को प्रारूप 5 के साथ दोबारा प्रस्तुत करना चाहिए ।

टिप्पण - 2 पति या पत्नी के ब्यौरे, सभी बालक और माता-पिता (चाहे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हों या नहीं) तथा निःशक्त सहोदरों (भाइयों और बहनों) के ब्यौरे दिए जा सकेंगे ।

टिप्पण - 3 कार्यालय अध्यक्ष “टिप्पणियाँ” स्तंभ में कुटुंब के परिवर्धन या परिवर्तन के विषय में संसूचना की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करेगा । निःशक्तता के बारे में तथ्य या कुटुंब सदस्य के वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन भी “टिप्पणियाँ” स्तंभ में उपदर्शित किया जाना चाहिए ।

टिप्पण - 4 पति और पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति और पत्नी सम्मिलित होंगे ।

प्ररूप 5

(नियम 59(1) (ग) और नियम 61(1) देखिए)

(केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम 1981 का नियम 5(2) नियम 12, नियम 13(3), नियम 14(1) और नियम 15(3) देखें)

निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक-से उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभिप्राप्त की जाने वाली विशिष्टियाँ

1. नाम
2. (क) आयकर के लिए स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)
(ख) आधार संख्या, यदि उपलब्ध है
3. पहचान के कुछ चिन्ह विनिर्दिष्ट करें जो दो से कम न हों, यदि संभव हो
(i)
(ii)
4. ऊँचाई
5. भावी पत्रव्यवहार के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात् पता/स्थायी पता
6. बैंक खाता संख्यांक जिसमें पेंशन जमा की जानी है:
(संयुक्त खाता, या तो उत्तरजीवी या, पति या पत्नी के साथ)
(यदि कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि किसी निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक का उसके नियंत्रण से परे कारणों से संयुक्त खाता खोला जाना संभव नहीं है, तो इस अपेक्षा को शिथिल किया जा सकेगा।)
7. बैंक की शाखा का नाम जिसके माध्यम से पेंशन ली जानी है
(क) शाखा का बी एफ आर कोड
(ख) शाखा का आई एफ एस सी कोड
8. उपदर्शित करें कि क्या कुटुंब पेंशन किसी अन्य स्रोत से भी अनुज्ञेय है - सेना या राज्य सरकार और/या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लोक उद्यम उपक्रम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि
9. मैं केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार अपनी अधिवर्षिता पेंशन का प्रतिशत (40 प्रतिशत तक) के संराशीकरण की वांछ करता हूँ।

मैं अवगत हूँ कि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का भावी अच्छा आचरण पेंशन/ कुटुंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और इसके जारी रहने के लिए विवक्षित शर्त होगी।

जांच सूची के अनुसार संलग्नक संलग्न हैं

हस्ताक्षर :
पदाभिधान :
मंत्रालय/विभाग/कार्यालय :
मोबाइल नं :
ई-मेल आईडी.....

स्थान.....
तारीख.....

टिप्पण 1 : पेंशन का संराशीकरण वैकल्पिक है। मद 9 हटा दी जाए यदि निवृत्त होने वाला सरकारी सेवक, पेंशन की प्रतिशतता को संराशित करने के लिए इच्छुक नहीं है।

टिप्पण 2 : केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के प्ररूप 1क में अधिवर्षिता पेंशन के संराशीकरण के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी यदि निवृत्त होने वाला सरकारी सेवक इस प्ररूप के प्रस्तुत करने के पश्चात् किंतु सेवानिवृत्त के तीन मास पूर्व पेंशन के संराशीकरण के लिए वांछ करता है।

टिप्पण 3 : यह सरकारी सेवक के हित में है कि वह ई मेल आई डी और मोबाइल नं० दे जो उनमें भावी पत्र व्यवहार को सुकर बनाएगा।

प्ररूप 5 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

क्र. सं०	संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का वर्णन	क्या संलग्न किया गया है
1. (क) (ख)	हरताक्षर को दो नमूने (पृथक पन्ने में प्रस्तुत किया जाए) अतिरिक्त जानकारी (केवल निश्चर या निःशक्त सरकारी सेवक को गमले में) :- दो पंक्तियों जिनमें से प्रत्येक पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपने हरताक्षर करने योग्य साक्षर नहीं है, उसके बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छापें जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई हैं, दी जाएगी। यदि ऐसा सरकारी सेवक शारीरिक निःशक्ताता के कारण बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप देने में असमर्थ है तो वह दाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की छाप दे सकता है। जहां सरकारी सेवक के दोनों ही हाथ न हों तो वह अपने पांव की अंगुलियों की छाप दे सकता है। छापों को किसी राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए।	
2.	पति या पत्नी के साथ पासपोर्ट फोटो आकार के संयुक्त फोटोग्राफ की तीन प्रतियां। जहां किसी सरकारी सेवक के लिए अपनी पत्नी या अपने पति के साथ फोटो देना संगत नहीं है तो वह अलग से फोटो दे सकेगा/सकेगी। फोटो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित किए जाएंगे। निःशक्त बच्चे/सहोदर/निर्भर माता-पिता के पासपोर्ट फोटो आकार के फोटो की तीन प्रतियां, जहां लागू है (कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित)	
3.	प्ररूप 3 में कुटुंब का ब्योरा	
4.	उन व्यक्तियों के लिए जो सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 8 में निविष्ट सुरक्षा संबंधी या आसूचना संगठनों में सेवा कर चुके हैं, प्ररूप 26 में वचनबंध	
5.	59(1)(क) के अधीन सेवा की अवधि की गणना के लिए लिखित कथन, यदि कोई है।	
6.	पेंशन संचितरक बैंक द्वारा किए गए किसी अधिक संदाय के प्रतिदाय के लिए वचनबंध	
7.	सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप में उपदान, सी जी ईजीआईएस और जी पी एफ के लिए नामनिर्देशन	
8.	सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप में पेंशन के संराशित मूल्य (यदि पेंशन संराशीकरण के लिए आवेदन किया गया है) और पेंशन के बकाया के लिए नाम निर्देशन	

प्ररूप 7

(नियम 58, नियम 60, नियम 61(1) और (3) तथा नियम 65(1) देखिए)

पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान का निर्धारण करने के लिए प्ररूप
(पीएओ को सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व भेजा जाए)

भाग - 1

1. निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. पैन सं०
4. ऊंचाई और पहचान के चिन्ह
5. जन्मतारीख
6. वह सेवा जिससे वह संबंधित है (संगठित सेवा का नाम उपदर्शित करें, यदि कोई है, अन्यथा तात्पर्यित साधारण केंद्रीय सेवा)
7. सेवा निवृत्ति के समय धारित पद की विशिष्टियाँ
(क) कार्यालय का नाम
(ख) धारित पद
(ग) पद का वेतनमान/वेतनबैंड और ग्रेड वेतन
(घ) मूल वेतन/वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन
(ङ) क्या ऊंर उल्लिखित नियुक्ति सरकार के अधीन है या सरकार से बाहर अन्यत्र सेवा निबंधनों में है।
(च) यदि अन्यत्र सेवा पर है तो मूल विभाग में पद का वेतनमान/वेतनबैंड, वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन।
8. क्या केंद्रीय सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी घोषित किया गया है।
9. सेवा के आरंभ की तारीख
10. सेवा की समाप्ति की तारीख
11. सेवा समाप्ति का कारण (कृपया एक पर निशान लगाएं)
(क) अधिवर्षिता (नियम 35)
(ख) अधिशिष्ट घोषित होने पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (नियम 29-क)
(ग) सरकारी सेवक की पहल पर स्वैच्छिक/समयपूर्व सेवा निवृत्ति (नियम 48, 48क और एफ आर 56(ट) के अधीन
(घ) सरकारी सेवक की पहल पर समय से पूर्व सेवानिवृत्ति (नियम 48 या एफ आर 56(ज)
(ङ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन (नियम 37 या 37क/37ख)
(च) चिकित्सा के आधार पर अशक्तता (नियम 38)
(छ) पद की समाप्ति के कारण (नियम 39)
(ज) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (नियम 40)
(झ) सेवा से हटाया जाना/पदच्युति (नियम 24 और नियम 41)
(ञ) मृत्यु
12. अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के आदेश कि पेंशन पूर्ण दरों पर अनुज्ञात हो या घटी दरों पर और घटी दरों के मामले में, वह प्रतिशतता जिस पर इसे अनुज्ञात किया जाना है (कृपया नियम 40 देखिए)
13. सेवा से हटाए जाने/ पदच्युति की दशा में क्या अनुकंपा भत्ता मंजूर किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किए गए हैं और यदि ऐसा है तो किस दर पर (कृपया नियम 41 देखिए)
14. सैन्य सेवा से संबंधित विशिष्टियाँ, यदि कोई हैं -
(क) सैन्य सेवा की अवधि
(ख) सैन्य सेवा से संबंधित ली गई/ली जा रही सेवांत प्रसुविधाएं
(ग) क्या सिविल पेंशन के लिए सैन्य सेवा की गणना के लिए विकल्प दिया गया है

(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सेवांत प्रसुविधाओं का प्रतिदाय किया गया है।

15. स्वायत्त निगम/ राज्य सरकार में सेवा से संबंधित विशिष्टियां, यदि कोई हैं -
(क) सेवा की विशिष्टियां :

संगठन का नाम	धारित पद	सेवा की अवधि से	तक	अवधि
--------------	----------	-----------------	----	------

- (ख) क्या ऊपर उल्लिखित सेवा, सरकार में पेंशन के लिए गणना में ली जाती है।
(ग) क्या स्वायत्त संगठन ने केन्द्रीय सरकार को अपने पेंशन दायित्व का निर्वहन किया है।

16. क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 के निबंधनों में कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां किसी निवृत्त होने वाले कार्यवाहियों के विरुद्ध लंबित है (नियम 69 के निबंधनों में यदि हां, अन्तिम पेंशन अनुद्ध्य होगी और उपरान्त विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के निष्कर्ष और अन्तिम आदेशों के जारी होने तक रोक लिया जाएगा।)

17. अर्हक सेवा -

(क) सेवा पुस्तिका में लोप, अपूर्णता या कमियों के ब्यौरे जिनकी उपेक्षा की गई है [नियम 59(1)(ख) (ii) के अधीन]

(ख)

- (i) बाल सेवा (नियम 13 का दूसरा परंतुक)
(ii) अर्हक सेवा के रूप में गणना में न ली जाने वाली असाधारण छुट्टी (नियम 21)
(iii) नहीं मानी गई अर्हक सेवा के रूप में गिनतब की अवधियां (नियम 23)
(iv) सेवा में व्यवधान [नियम 27(1)(ख) और नियम 28(ग)]
(v) संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ अन्यत्र सेवा जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र की पेंशन का फायदा लिया गया है (नियम 31)
(vi) कोई और अवधि जिसे अर्हक सेवा के रूप में नहीं माना गया है (ब्यौरे दें)

(ग) अर्हक सेवा में परिवर्धन -

- (i) सिविल सेवा (नियम 18)
(ii) सेना संबंधी सेवा (नियम 19)
(iii) स्वायत्त निकाय में सेवा का लाभ

(घ) शुद्ध अर्हक सेवा

(ङ) पूर्ण षट्मासिक अवधियों के निबंधनों में अभिव्यक्त अर्हक सेवा (तीन मास या ऊपर की अवधि को पूर्ण षट्मासिक अवधि के रूप में माना जाए) (नियम 49)

18. परिलब्धियां-

(क) नियम 33 के निबंधनों में परिलब्धियां

(ख) सेवानिवृत्ति से पूर्व दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां

से	तक	वेतन की दर (एनपीए सहित)	रकम
----	----	-------------------------	-----

टिप्पण : यदि सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व कोई अधिकारी अन्यत्र सेवा पर था तो धारणात्मक परिलब्धियां जो उसने

सरकार के अधीन प्राप्त की जाती ऊपर मद (क) और (ख) में उल्लिखित की जाएँ (नियम 33 के नीचे टिप्पण 7)

(ग) आसत परिलब्धियां (नियम 34)

(घ) परिलब्धियां या आसत परिलब्धियां (जो भी अधिक हों) जिसकी पेंशन के लिए गणना की जानी है (नियम 49)

(ङ) सेवानिवृत्ति उपदान/ मृत्यु-उपदान के लिए गणना में ली गई उपलब्धियां (नियम 50)

(च) कुटुंब पेंशन के लिए गणना में लिया गया वेतन (नियम 54)

19. सेवानिवृत्ति उपदान/ मृत्यु-उपदान की रकम (नियम 50) (संगणना पत्र का क्रम संख्यांक 9 देखें)

20. उपदान से वसूलीयोग्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरे

(क) सरकारी आवासन के लिए अनुज्ञप्ति फीस

[नियम 72 के उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) देखें]

(ख) नियम 73 में निर्दिष्ट शोध्य

(ग) नियम 72 के उपनियम (5) के अधीन राके जाने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा उपदर्शित रकम

21. (क) प्रस्तावित पेंशन/ सेवा उपदान (नियम 49)

(ख) पेंशन पर प्रस्तावित महंगाई राहत (सेवानिवृत्ति की तारीख को यथा विद्यमान)

(ग) वह तारीख जिससे पेंशन आरंभ होनी है (नियम 83)

22. कुटुंब पेंशन की दर -

(क) बढ़ी दर [नियम 54(3)]

(ख) वह अवधि जिसके लिए कुटुंब पेंशन बढ़ी दर पर संदेय है।

(ग) साधारण दर

(घ) वह तारीख जिससे कुटुंब पेंशन की साधारण दर संदेय होगी।

23. पेंशन का संराशीकरण -

(क) क्या पेंशन आवेदन के साथ पेंशन के संराशीकरण के लिए एक साथ आवेदन किया गया है (केवल उन व्यक्तियों के लिए लागू जो अधिवर्षिता पेंशन पर सेवानिवृत्त होते हैं)

(ख) संराशित पेंशन की प्रतिशतता

(ग) संराशित मासिक पेंशन की रकम

(घ) पेंशन का संराशित मूल्य

(ङ) संराशित भाग की कटौती करने के पश्चात् पेंशन की रकम

(च) वह तारीख जिससे घटी पेंशन संदेय है

(छ) वह तारीख जिसको संराशित पेंशन प्रत्यावर्तित की जानी है।

24. सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति का सेवानिवृत्ति के पश्चात् पता

25. ई-मेल आई डी, यदि कोई है

26. मोबाइल नंबर, यदि कोई है।

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्रारूप 7 सेवानिवृत्त देयताओं पर समयोचित कार्रवाई हेतु कार्यालय अध्याक्ष को लिए जाण श्रेणी

1. क्या सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी सरकारी आवास का आवंटन है,
2. यदि सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी सरकारी आवास का कोई आवंटन नहीं है तो वह तारीख जिसको
कर्मचारी द्वारा "सेवाकी प्रमाणपत्र" जारी किया गया है ।
3. वह तारीख जिसको, नियम 57 में यथाउपबंधित, संपदा निदेशालय से "सेवाकी प्रमाणपत्र" प्राप्त करने
के लिए कार्यवाही आरंभ की गई थी ।
4. संपदा निदेशालय से "सेवाकी प्रमाणपत्र" की प्राप्ति की तारीख
5. वह तारीख जिसको संपदा निदेशालय से उपदान से रकम की कोई वसूली/उपदान में से सारी शेष
जाने संबंधी संसूचना प्राप्त हुई ।
6. वह तारीख जिसको, नियम 59 में यथाउपबंधित, पेंशन के लिए अर्हक सेवा और परिलब्धियों का
निर्धारण करने के लिए कार्यवाई आरंभ की गई है ।
7. वह तारीख जिसको नियम 73(1) में यथाउपबंधित सरकारी आवास के आवंटन से संबंधित शोष्यों से
भिन्ना सरकारी शोष्यों का निर्धारण करने के लिए कार्यवाई आरंभ की गई है ।
8. वह तारीख जिसको सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को अर्हक सेवा की अवधि और सेवा निवृत्ति
उपदान तथा पेंशन के लिए गणना में लिए जाने वाली प्रस्तावित परिलब्धियाँ/औसत परिलब्धियाँ के बारे
में प्रमाणपत्र के साथ रिक्त प्रारूप-5 प्रस्तुत किया गया था ।
9. क्या उपरोक्त प्रमाणपत्र पर कर्मचारी से कोई आक्षेप प्राप्त हुए हैं ।
10. वह तारीख जिसको कर्मचारी ने पेंशन के लिए प्रारूप 5 में अपना आवेदन प्रस्तुत किया था
11. क्या सामान्य नामनिर्देशन प्रारूप में निम्नलिखित के लिए नाम निर्देशन किया गया है
(i) मृत्यु उपदान/सेवानिवृत्ति उपदान
(ii) सी सी ई जी आई एस के अधीन संदाय
(iii) साधारण भविष्य निधि की रकम, यदि लागू हो
(iv) पेंशन का वकाया
(v) पेंशन का संश्लिष्ट मूल्य (यदि लागू हो)
12. (i) क्या सरकारी सेवक ने सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 8 के उपनियम 3क में
उल्लिखित किसी संगठन में कार्य किया है
(ii) यदि हाँ, तो क्या प्रारूप 26 में किसी वचनबंध को प्रारूप 5 के साथ प्राप्त किया गया है और
अभिलेख में रखा गया है ।
13. क्या प्रारूप 3 में कुटुंब के व्यौर संलग्न हैं ।
14. क्या अक्षमता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र (अशक्त पेंशन के लिए) संलग्न हैं ।
15. क्या प्रभावी वचन का कथन और कारण कि नियोजन कहीं और क्यों नहीं पाया जा सकता था,
संलग्न है (यदि दावा प्रतिकर पेंशन या उपदान के लिए है)
16. क्या मद सं. 12 या मद सं. 13 के विरुद्ध अनिवार्य सेवा निवृत्ति/पदच्युति/हटाए जाने के मामले में
पेंशन की मंजूरी के बारे में सक्षम प्राधिकारी के आदेश अभिलेखबद्ध किए गए हैं ।
17. क्या पेंशन के कागजपत्रों के विलंब के कारणों को उपदर्शित करने वाले, कथन को संलग्न किया
गया है सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के छह मास से पूर्व अप्रेषित नहीं किए जाने की
18. क्या सरकारी सेवक पुनः कथन को आगे लाने वाले कथन को संलग्न किया गया है (उन सरकारी
सेवकों के मामले में जो सेवा से निलंबित, अनिवार्य सेवा निवृत्ति, हटाए जाने या पदच्युति के पश्चात्
बहाल किए गए हैं) ।

भाग 2

1. कार्यालय अध्यक्ष से लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन कागज-पत्रों की प्राप्ति की तारीख
2. अनुज्ञाप्य हकदारियाँ
 - अ. अर्हक सेवा की अवधि
 - आ. पेंशन
 - (i) पेंशन का वर्ग
 - (ii) मासिक पेंशन की रकम
 - (iii) प्रारंभ की तारीख
 - इ. पेंशन का संराशीकरण
 - (i) संराशित पेंशन का भाग, यदि कोई है
 - (ii) संराशित पेंशन के भाग का संराशित मृत्यु, यदि कोई है -
 - (iii) संराशीकरण के बाद अवशिष्ट पेंशन
 - (iv) वह तारीख जिसको घटी हुई पेंशन संदेय है
 - (v) पेंशनभोगी के लगातार जीवित रहने के अध्यक्षीन पेंशन के संराशित भाग के प्रत्यावर्तन की तारीख
 - ई. सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान
 - (i) उपदान की कुल रकम
 - (ii) सरकारी आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस के बकाए के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम और सेवानिवृत्ति के परे सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए फीस (नियम 72(1) और 72(4) देखिए)
 - (iii) निर्धारित नहीं की गई अनुज्ञप्ति फीस के कारण रोके जाने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा संसूचित रकम (नियम 72(5) देखिए)
 - (iv) सरकारी आवास से भिन्न सरकारी शोध्यों के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम (नियम 73.....)
 - (v) दी जाने वाली शुद्ध रकम
 - उ. तत्काल कुटुंब पेंशन
 - (i) बढी दर पर
 - (ii) वह अवधि जिसके लिए कुटुंब पेंशन बढी दर पर-संदेय है
 - (iii) सामान्य दर पर
3. लेखा का शीर्ष जिसमें पेंशन, सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन की रकम सामे की जानी है।

लेखा अधिकारी

पेंशन संगणना पत्र

1. नाम
2. पदनाम
3. वेतनमान/वेतनवर्ग और ग्रेड वेतन
4. जन्म तारीख
5. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख
6. सेवा निवृत्ति की तारीख
7. पेंशन/उपदान के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (जो पी पी ओ में उपदर्शित की गई है)
8. अंतिम दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां
9. (1) परिलब्धियां और औसत परिलब्धियां जो पेंशन के लिए अधिक लाभप्रद हो (जो पी पी ओ में उपदर्शित की गई है)
(2) अनुज्ञेय पेंशन (यदि अर्हक सेवा दस वर्ष या अधिक है)
निम्नानुसार संगणना दर्शित की जाए —
परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां/2
10. (1) उपदान के लिए परिलब्धियां (जो पी पी ओ में उपदर्शित की गई है)
(2) अनुज्ञेय सेवा निवृत्ति उपदान की गणना को निम्नानुसार दर्शित किया जाए
परिलब्धियां /4 X अर्हक सेवा (पूर्ण षट्मासिक अवधियों में, किंतु 66 से अधिक नहीं)
11. (1) कुटुंब पेंशन के लिए वेतन (जिसे पी पी ओ में उपदर्शित किया गया है)
(2) अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन
गणना को निम्नानुसार दर्शित किया जाए
(क) साधारण कुटुंब पेंशन
अंतिम लिया गया वेतन X 30 प्रतिशत (विहित न्यूनतम और अधिकतम के अध्याधीन)
(ख) बड़ी कुटुंब पेंशन
अंतिम लिया गया वेतन/2
(निराम 54 के अनुसार विहित न्यूनतम और अधिकतम के अध्याधीन)

कार्यालय अध्यक्ष

प्रतिहरताक्षरित
पी ए ओ

प्रति — श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सेवा निवृत्त होने वाला सरकारी सेवक

प्ररूप 8

(नियम 61(1) देखिए)

उस पत्र का प्ररूप जिसके साथ सरकारी सेवक के पेंशन पत्र लेखा अधिकारी को भेजे जाएंगे

सं.....

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग/कार्यालय

तारीख.....

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी

विषय — पेंशन प्राधिकृत करने के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी.....के पेंशनपत्र

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के /की/ श्री/श्रीमती/कुमारी.....के पेंशनपत्रों को आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए आपको भेजने का निदेश दिया गया है।

2. उन सरकारी शोध्यों के बारे, जो सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख को बकाया होंगे और जिन्हें मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान की रकम से वसूल किया जाना है, नीचे उपदर्शित है —

- | | |
|---|-----|
| (क) गृह-निर्माण या सवारी अग्रिम का अतिशेष | रु० |
| (ख) वेतन और भत्तों का, जिसके अंतर्गत छुट्टी वेतन भी है, अतिसंदाय..... | रु० |
| (ग) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य आयकर | रु० |
| (घ) सरकारी आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस का बकाया | रु० |
| (ङ) सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी आवास रखने के लिए अनुज्ञप्ति फीस की रकम | रु० |
| (च) नियम 72 (5) के अधीन संपदा निदेशालय की संसूचना के अनुसार धारित की जाने वाली रकम | रु० |
| (छ) कोई अन्य निर्धारित शोध्य और उनकी प्रकृति | रु० |

3. आपका ध्यान संलग्नकों की ओर दिलाया जाता है जो इसके साथ भेजे जा रहे हैं।

4. इस पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकृत करें और इस मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय को जानकारी दें कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक/पेंशनभोगी को संसूचना के अधीन पेंशन के संवितरण के लिए आवश्यक अनुदेश संबद्ध संवितरक प्राधिकारी को जारी कर दिए गए हैं।

5. आपसे प्राधिकार प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति उपदान इस मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय द्वारा निकाला और संवितरित किया जाएगा। पैरा 2 में वर्णित बकाया सरकारी शोध्य, संदाय करने से पूर्व सेवानिवृत्ति उपदान में से वसूल कर लिए जाएंगे।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

संलग्नकों की सूची—

1. संलग्नकों और जोच सूचियों के साथ सम्यक रूप से भर हुआ प्ररूप 5 और प्ररूप 7
2. सेवा पुस्तिका (सेवा पुस्तिका में सेवानिवृत्ति की तारीख उपदर्शित की जाए)

टिप्पण

1. यदि विभिन्न परामर्शित अभिलेखों में सरकारी सेवक के आद्याक्षर या नाम गलत रूप में दिए गए हैं तो इस बात का गन्ना में वर्णन किया जाना चाहिए।
2. यदि कोई सरकारी सेवक सेवा-से अचिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है और सरकारी सेवक से प्ररूप G अभिप्राप्त करने में विफल होने की प्रत्याशा है तो कार्यालय अध्यक्ष पेंशन पत्र, प्ररूप G को बिना छे, लेखा अधिकारी को भेजेगा। प्ररूप G सरकारी सेवक से अभिप्राप्त होने पर बाद में संशायीय राज दिया जाएगा।

प्ररूप 10

(नियम 77(2) देखिए)

जहां कि मृत्यु उपदान दिए जाने के संबंध में कोई वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में हो यहां मृत सरकारी सेवक के नामनिर्देशिती को भेजे जाने वाले पत्र का प्ररूप

स.

भारत-सरकार

मंत्रालय

विभाग

तारीख.....

सेवा में,

विषय — स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी की बाबत मृत्यु उपदान का संदाय ।

महोदय/महोदया,

- मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के/की स्वर्गीय श्री/श्रीमती/ (नाम और पदनाम) द्वारा किए गए नामनिर्देशन के निबंधनों के अनुसार उसके नाम निर्देशित (नामनिर्देशितियों) को मृत्यु उपदान संदेय हैं । उक्त नामनिर्देशन की एक प्रति यहाँ संलग्न है ।
2. मुझे यह निवेदन करना है कि आप उपदान दिए जाने के लिए अपना दावा संलग्न प्ररूप 12 में प्रस्तुत करें ।
 3. यदि नामनिर्देशन करने की तारीख के बाद से कोई ऐसी आकस्मिता घटित हो गई हो जिससे कि नामनिर्देशन पूर्णतः या भागतः अविधिमान्य हो जाता हो तो कृपया उस आकस्मिता के ठीकठाक ब्यौरे का उल्लेख करें ।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

जहां कि मृत्यु उपदान दिए जाने के संबंध में कोई वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं हो वहां मृत सरकारी सेवक के कुटुंब के सदस्य या सदस्यों को भेजे जाने वाले पत्र का प्ररूप

सं.

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग

तारीख.....

सेवा में,

.....

.....

विषय — स्वर्गीय श्री/श्रीमती/की बाबत मृत्यु उपदान का संदाय ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केंद्रीय सिविल तथा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 50 और 51 के निर्बंधों के अनुसार..... कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के /की स्वर्गीय श्री/श्रीमती/(नाम और पदनाम) के

कुटुंब के निम्नलिखित सदस्यों की मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान बराबर अंशों में संदेय हैं, —

(i) पत्नी/पति, जिसके अंतर्गत न्यायिक रूप से पृथकतः पत्नी/पति भी है

(ii) पुत्र

(iii) अविवाहित पुत्रियां

(iv) विधवा पुत्रियाँ

जिनके अंतर्गत सौतेले बालक और दत्तक बालक

भी आते हैं ।

2. यदि कुटुंब का उपर्युक्त या यथाउपदर्शित कोई भी उत्तरजीवी सदस्य नहीं है तो उपदान कुटुंब के निम्नलिखित सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में संदेय होगा —

(i) पिता

(ii) माता

जिनके अंतर्गत ऐसे व्यष्टियों की दशा में जिनकी

स्वीय विधि में दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा है, दत्तक

माता-पिता हैं ।

(iii) अठारह वर्ष से कम की आयु का भाई और अविवाहित और विधवा बहनें, जिनके अंतर्गत सौतेले भाई और सौतेली बहनें हैं ।

(iv) विवाहित पुत्रियाँ ; और

(v) पूर्व मृत पुत्र के बालक

3. निवेदन है कि उपदान के संदाय के लिए दावा, यथासंभव शीघ्र, संलग्न प्ररूप 12 में प्रस्तुत किया जाए ।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

प्ररूप 12

(नियम 77(2) देखिए)

सरकारी सेवक की मृत्यु पर मृत्यु उपदान दिए जाने के लिए आवेदन का प्ररूप (प्रत्येक दावेदार द्वारा अलग-अलग भरा जाए और अवयस्क दावेदार की दशा में वह प्ररूप उसकी ओर से संरक्षक द्वारा भरा जाए । एक से अधिक अवयस्कों की दशा में संरक्षक का उनकी ओर से एक ही प्ररूप में उपदान का दावा करना चाहिए)

1. (i) मृत सरकारी सेवक का नाम जिसकी बाबत उपदान का दावा किया जा रहा है ।
(ii) सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख
(iii) कार्यालय/विभाग/मंत्रालय जिसमें मृत व्यक्ति ने अंतिम सेवा की थी

2. दावेदार (रों) का नाम और अन्य ब्यौरे

क्रम सं०	नाम	जन्म तारीख	मृत सरकारी सेवक के साथ नातेदारी	डाक पता
सं०				

3. यदि दावेदार अवयस्क है (हैं) तो संरक्षक का ब्यौरा

क्रम सं०	नाम	जन्म तारीख	मृत सरकारी सेवक के साथ नातेदारी	डाक पता

4. खाता संख्यांक के साथ बैंक के ब्यौरे ई-संदाय/ई सी एस के लिए आई एफ सी कोड

दावेदार/ संरक्षक के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

संलग्नक —

- (i) मृत्यु प्रमाणपत्र
- (ii) जन्म का प्रमाणपत्र (अवयस्क व्यक्तियों की दशा में)
- (iii) दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर/बाएं हाथ में अंगूठे और उंगुली के नमूने

कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए मृत सरकारी सेवक के कुटुंब सदस्य को भेजे जाने वाले पत्र का प्ररूप

सें.....

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग

तारीख.....

सेवा में,

विषय - स्वर्गीय श्री/श्रीमती/ की बाबत कुटुंब पेंशन का संदाय ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के निबंधनों के अनुसार..... कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के/की स्वर्गीय श्री/श्रीमती/ (पदनाम) के रूप में आपको कुटुंब पेंशन संदेय है,

2. आपको सलाह दी जाती है कि कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए दावा संलग्न प्ररूप 14 में प्रस्तुत किया जाए ।

3. विधवा/विधुर के पुनर्विवाह के पश्चात् मृत्यु या अपात्रता की दशा में, कुटुंब पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार पात्र बालक या बालकों, आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदर भाइयों या बहनों यदि कोई हैं, को मंजूर की जाएगी ।

4. बालक रहित विधवा की दशा में पुनर्विवाह के पश्चात्, कुटुंब पेंशन इस शर्त के अधीन संदेय होगी कि उसका उपार्जन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अन्तर्गत न्यूनतम कुटुंब पेंशन की राशि और उस पर मंहगाई - राहत से कम या उसके बराबर है ।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

(नियम 77 (3) और नियम 81 (2) देखिए)

सरकारी सेवक/पेंशन भोगी/कुटुंब पेंशन भोगी की मृत्यु पर कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन का प्ररूप

1. (i) सरकारी सेवक का नाम जिसकी बाबत कुटुंब पेंशन का दावा किया जा रहा है
- (ii) अंतिम संवत्त कार्यालय/विभाग/मंत्रालय
- (iii) सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख
- (iv) सरकारी सेवक/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख
- (v) सरकारी सेवक/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशन भोगी का पी पी ओ संख्यांक

2. दावेदार का नाम और अन्य ब्यौरे

नाम	जन्म की तारीख	मृत सरकारी सेवक से नातेदारी	डाक पता

3. यदि दावेदार अवयस्क है या मस्तिष्क के विकार या निःशक्तता से पीड़ित है जिसमें मानसिक मंदन भी सम्मिलित है तो अभिभावक/नामनिर्देशिनी के ब्यौरे दें जहां कहीं लागू हों

नाम	जन्म तारीख	अवयस्क/ मानसिक अशक्त के साथ नातेदारी	मृत सरकारी सेवक के साथ नातेदारी	डाक पता

4. मृत सरकारी सेवक/पेंशनभोगी की उत्तरजीवी विधवा/विधुर, बालक आश्रित माता-पिता और निःशक्त सहोदरों भाइयों और बहनों के ब्यौरे प्ररूप 3 में संलग्न हैं

5. खाता संख्यांक, उस बैंक का नाम और शाखा का बी एस आर कोड जिसमें कुटुंब पेंशन जमा की जानी है ।

6. कुटुंब पेंशन का अन्य स्रोत -सेना या राज्य सरकार और/या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि, यदि कोई है ।

मैं अवगत हूँ कि दावेदार/कुटुंब पेंशनभोगी का भावी अच्छा आचरण, कुटुंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और इसके जारी होने के लिए विवक्षित होगा ।

संलग्न — जांच सूची के अनुसार

दावेदार/संरक्षक के बाएं हाथ के अंगूठे की छाप
मोबाइल/टेलीफोन सं0.....

आयकर का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन सं0).....
आधार संख्या यदि उपलब्ध है.....

नाम और पूर्ण पतों सहित दो साक्षियों के हस्ताक्षर

- (i)
- (ii)

टिप्पणः प्ररूप 14 को न भरा जाए यदि पति या पत्नी का मृत पेंशन भोगी के साथ संयुक्त खाता था । ऐसे मामलों में, कुटुंब पेंशन को सादे कागज पर आवेदन के आधार पर पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा । स्थायी निःशक्त बालक/सहोदर भाई और बहन और आश्रित माता-पिता जिनको पेंशनभोगियों के पी पी ओ में प्राधिकृत किया गया है, यह प्ररूप कुटुंब पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करें ।

प्ररूप 14 में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

1. साक्षर के के से नमूने हस्ताक्षर (पृथक पत्र में प्रस्तुत किया जाए) जो राजपत्रित सरकारी रोगक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किए गए हैं ।

(किन्तु व्यक्ति द्वारा दो पंक्तियों जिनमें से प्रत्येक पर आवेदन के नाम तथा के अंगूठे और अंगुलियों की छापें हैं जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई हैं जो अपना नाम हस्ताक्षर करने में साक्षर नहीं है, यदि शारीरिक निक्षपता के ऐसे कारण से नाम हाथ के अंगूठे और संगली की छापें देने के लिए असमर्थ है तो वह व्यक्ति तथा वह अंगूठा और संगली छाप दे सकंगा/सकंगी जहां सरकारी रोगक के दोनों हाथ न हो तो वह घेर की अंगुली छाप दे सकंगा/सकंगी जिसे राजपत्रित सरकारी रोगक द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए ।

2. साक्षर की फोटो की पासपोर्ट आकार की फोटो दो प्रतियां जो सम्यक रूप से अनुप्रमाणित की गई हैं ।

3. ऊंचाई और शैक्षिक पहचान चिन्ह को दर्शित करने वाली दो पंक्तियां, जो राजपत्रित सरकारी रोगक द्वारा अनुप्रमाणित हैं

4. प्ररूप 3 में कुटुंब का व्योस

5. आयु का/के प्रमाणपत्र जिसमें/जिनमें बालकों की जनसंख्या दर्शित की गई है । यह प्रमाणपत्र नगरपालिका प्राधिकारियों अथवा स्थानीय पंचायत केंद्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड / मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रमुख से लेना चाहिए ।

6. पेंशन संचितरण बैंक द्वारा किए गए अधिक संदाय के प्रतिदाय के लिए सचनबंध

7. संरक्षक के हस्ताक्षर या नाम हाथ का अंगूठा और अंगुली छाप के नमूने सम्यक रूप से अनुप्रमाणित किए जाएं, संरक्षक के मांगले में जो अपने नाम हस्ताक्षर करने के लिए पर्याप्त रूप से साक्षर नहीं है ।

8. संरक्षक/नामनिर्देशित्री के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की दो अनुप्रमाणित प्रतियां

9. संरक्षक/नामनिर्देशित्री की ऊंचाई और पहचान चिन्हों की विशिष्टियां दर्शित करने वाली वर्णनामाक पंजी, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित ।

10. पूर्व पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के पी पी ओ की प्रति

11. संरक्षक के स्थायी पते का सबूत

12. मृत कर्मचारी या पेंशनभोगियों /पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति ।

13. पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी की पात्रता के संबंध में दस्तावेज की प्रति, यदि लागू हो ।

प्ररूप 18

(नियम 78(1), नियम 80(1), नियम 80(3) नियम 80(5), नियम 80ख(1) और 80ख(5)
सेवा में रहते हुए सेवक की मृत्यु की दशा में कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के निर्धारित और प्राधिकृत करने के लिए
प्ररूप

भाग 1

अनुभाग 1

1. मृत सरकारी सेवक का नाम
2. पिता का नाम
3. महिला सरकारी सेवक की दशा में पति का नाम
4. जन्म तारीख (ईसवीं सन के अनुसार)
5. मृत्यु की तारीख (ईसवीं सन के अनुसार)
6. धर्म
7. मृत्यु के समय धारित पद की विशिष्टियाँ
(क) कार्यालय का नाम
(ख) अधिष्ठायी पद
(ग) स्थानापन्न पद
(घ) वेतनमान/वेतनबैंड और ग्रेड वेतन
(ङ) वेतनमान/वेतनबैंड और ग्रेड वेतन में वेतन
(च) क्या सरकार के अधीन अंतिम पद धारित किया गया था या विदेश सेवा के निबंधन में सरकार से बाहर था
(छ) यदि अन्यत्र सेवा पर है, तो मूल विभाग के पद का वेतनमान/वेतनबैंड, वेतनबैंड में वेतन
8. सेवा के आरंभ की तारीख
9. (i) सैन्य सेवा की कुल अवधि, यदि कोई है, जिसके लिए पेंशन और/या उपदान मंजूर किया गया था
(ii) सैन्य सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन/उपदान की रकम और प्रकृति
10. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में सेवा से संबंधित विशिष्टियाँ, यदि कोई है
(क) सेवा की विशिष्टियाँ

संगठन का नाम	धारित पद	सेवा की अवधि		
		से	तक	अवधि

- (ख) क्या उपरोक्त सरकार में उपदान के लिए गणना ली जाने वाली सेवा है
(ग) क्या स्वायत्त संगठन ने पेंशन संबंधी दायित्व का निर्वहन केंद्रीय सरकार को किया है

11. पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की रकम और प्रकृति, यदि कोई है
12. मृत्यु उपदान के लिए अर्हक सेवा
(क) सेवा पुस्तिका में लोप, अपूर्णतया कमियों के ब्यौरे जिनकी उपेक्षा की गई है
(धारा 59(1) (ख) (ii) के अधीन) —
(ख) गैर अर्हक सेवा की अवधियाँ से तक
(i) नियम 27 और नियम 28 के अधीन माफ किया गया सेवा में व्यवधान
(ii) असाधारण छुट्टी जो उपदान के लिए अर्हक नहीं है
(iii) गैर अर्हक के रूप में मानी गई निलंबन की अवधि
(iv) बाल सेवा (नियम 13 का दूसरा परंतुक)
(v) संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ अन्यत्र सेवा की अवधियाँ जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र पेंशन का लाभ लिया गया है (नियम 31)
(vi) कोई अन्य सेवा जिसे अर्हक सेवा के रूप में नहीं समझा गया है
(ग) अर्हक सेवा में परिवर्धन -

- (i) रिगिल सेवा (नियम 18)
(ii) रंगरा सेवा
(iii) किसी स्वायत्त निकाय में सेवा का लाभ
अर्जित सेवा की कुल अवधि
(घ) कुल अर्जित सेवा
(ख) पूर्ण की गई छः मास की अवधियों के निम्नान्त में अभिव्यक्त अवधि सेवा (तीन मास और तीन मास से अधिक की अवधि की पूर्ण छः मास अवधि के रकम में माना जाए (नियम 40)

13. (क) मृत्यु उपदान के लिए गण्य परिलब्धियां

(ख) मृत्यु उपदान की रकम

14. मृत्यु उपदान से वसूलीयोग्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरे -

(i) सरकारी आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस (नियम 80ग देखिए)

(ii) संकेत जाने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा यथाउपदर्शित रकम (नियम 80ग(i) (v) देखिए)

(iii) नियम 80ग (2) में निर्दिष्ट शोध्य

15. मृत्यु उपदान के रूप में संदेय शोध्य रकम

16. नाम निर्देशिती (यौ) के ब्यौरे जिनको मृत्यु उपदान संदेय है

क्रम संख्या	नाम	मृत्यु उपदान में शेयर	जन्म तारीख	पता	मृत सरकारी सेवक के साथ नातेदारी

17. संरक्षक/नामनिर्देशिती के ब्यौरे जो अवयस्क/मानसिक निःशक्त बालक के मामले में मृत्यु उपदान का संदाय प्राप्त करेंगे

क्रम सं.	अवयस्क/मानसिक निःशक्ता बालक	संरक्षक का नाम	संरक्षक का पता	मृत सरकारी सेवक के साथ नातेदारी

18. वह तारीख जिसको सरकारी सेवक की मृत्यु के बारे में संसूचना कार्यालय अधिका द्वारा प्राप्त की गई थी -

19. वह तारीख जिसको निम्नलिखित के लिए कार्रवाई आरंभ की गई थी -

(i) नियम 77 में यथाउपबंधित मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन के लिए समुचित रूप में दावेदारों से दावा या दावों को प्राप्त करना ;

(ii) नियम 80ग(1) में यथाउपबंधित संपदा निदेशालय से 'यदाकी प्रमाणपत्र' प्राप्त करना,

(iii) नियम 80ग(2) में यथाउपबंधित सरकारी आवास के अधिभोग से संबंधित शोध्यों से भिन्न सरकारी शोध्यों का निर्धारण

(iv) नियम 78 और नियम 79 में यथाउपबंधित मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन के लिए अर्हक सेवा और परिलब्धियों का निर्धारण

20. कुटुंब पेंशन के संदाय के ब्यौरे

कुटुंब पेंशन की दर	कुटुंब पेंशन की रकम	वह अवधि जिसमें यह संदेय है	
बढ़ी दर (यदि नियम 54 (3) के अनुसार मृत्यु के समय दी गई सेवा सात वर्ष से अधिक है)		से	तक
साधारण दर			
नियम 54 (2क) के अधीन पुराने कुटुंब पेंशन भोगी को उस तारीख पर ही अतिरिक्त कुटुंब पेंशन, यदि कोई है			

21. व्यक्ति जिनको कुटुंब पेंशन संदेय है -

(i) नाम

(ii) मृत सरकारी सेवक से नातेदारी

(iii) पूर्ण डाक पता

22. संरक्षक के ब्यौरे जो अवयस्क/मानसिक निःशक्त बालकों के मामले में कुटुंब पेंशन का संदाय प्राप्त करेगा

क्रम सं०	अवयस्क/मानसिक निःशक्त बालक का नाम	संरक्षक का नाम	संरक्षक का पता	मृत सरकारी सेवक के साथ संरक्षक की नातेदारी

23. लेखाशीर्ष जिसमें मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन विकलनीय है ।

स्थान

तारीख.....

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

अनुभाग 2

नियम 130 के अनुसार कार्यालय अध्याक्ष द्वारा लेने और रीचिटाई किए जाने के लिए अनंतिम कृतज्ञ पत्र और सपदान के द्योति

अनंतिम कृतज्ञ पत्र.....

रु.....गांधीराज

गृह्य सपदान (अनुभाग 1 की मद 1.1 (b) में उल्लिखित)

रु.....

घटापु

(क) सरकारी आवासन के अधिभाग के लिए सपदान से वसूलनीय अनुसूति फीस रु.....

[14 (i)]

(ख) सपदा निदेशालय (अनुभाग 1 की मद 14(ii) के रूप में) से सूचना की रु.....

प्राप्ति के लिए लियत विधायित सपदान की रकम

(ग) अनुभाग 1 की मद 14(iii) में यथाउल्लिखित अन्य सरकारी शोध रु.....

(घ) (क), (ख) और (ग) का योग

रु.....

स्थान.....

तारीख.....

कार्यालय अध्याक्ष के हस्ताक्षर

भाग 2
लेखा मुख्यालय
अनुभाग 1

1. (i) मृत्यु उपदान के लिए स्वीकार की गई अर्हक सेवा की कुल अवधि
(ii) कुटुंब पेंशन के लिए स्वीकार की गई निरंतर सेवा की कुल अवधि
2. सरकारी शाप्य के समायोजन के पश्चात् मृत्यु उपदान की शुद्ध रकम
3. कुटुंब पेंशन की रकम और मान्य अवधि

कुटुंब पेंशन की दर	कुटुंब पेंशन की रकम	वह अवधि जिसमें यह संदाय है	से	तक
यहाँ दर (यदि नियम 54(3) के अनुसार मृत्यु के समय दी गई सेवा सात वर्ष से अधिक है)				
साधारण दर				
नियम 54(2क) के अधीन पुराने कुटुंब पेंशन भागी का तारीख पर ही अतिरिक्त कुटुंब पेंशन, यदि कोई है				

4. वह तारीख जिससे कुटुंब पेंशन संदाय है
5. लेखा शीर्ष जिसमें मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन विकलनीय है

अनुभाग 2

1. मृत सरकारी सेवक का नाम :
2. सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख :
3. वह तारीख जिसको लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन कागजपत्र प्राप्त किए गए :
4. प्राधिकृत कुटुंब पेंशन की रकम :
5. प्राधिकृत उपदान की रकम :
6. कुटुंब पेंशन के प्रारंभ की तारीख :
7. वह तारीख जिसको कुटुंब पेंशन और उपदान संदाय प्राधिकृत किया गया :
8. उपदान से वसूलनीय रकम :
9. 'बेबाकी प्रमाणपत्र' की प्राप्ति के लंबन पर रोकी गई उपदान की रकम :

स्थान
तारीख.....

लेखा अधिकारी

प्ररूप 19

(नियम 81 देखिए)

उस पत्र का प्ररूप जिसके साथ लेखा अधिकारी को ऐसे सरकारी सेवक के, जिसके सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, कुटुंब को कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के संदाय के लिए कागज पत्र भेजे जाएंगे।

स.....

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग, कार्यालय

तारीख.....

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी

विषय — कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान की मंजूरी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि..... (पदनाम)..... की मृत्यु तारीख..... को हो गई है। उनका कुटुंब, कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान प्राप्त करने का पात्र हो गया है। प्ररूप 18, जो सम्यक रूप से भरा गया है, आगे आवश्यक कार्यवाही के लिए इसके साथ भेजा जा रहा है।

2. मृत सरकारी सेवक की बाबत सरकारी शोध प्ररूप 18 के भाग 1 के अनुभाग 2 में दर्शित मृत्यु उपदान में से वसूल किए जाएंगे।

3. आपका ध्यान संलग्नकों की उस सूची की ओर, जो इसके साथ भेजी जा रही है, आकृष्ट किया जाता है।

4. इस पत्र की प्राप्ति की अभिलेखीकृति दी जाए और इस मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय को यह सूचना दी जाए कि कुटुंब पेंशन भोगी की संसूचना के अधीन कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के संवितरण संबंधी आवश्यक अनुदेश संबंध संवितरण प्राधिकारी को भेज दिए गए हैं।

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष

संलग्नकों की सूची

1. सम्यक रूप से पूर्ण प्ररूप 14 (जांच सूची के साथ) और प्ररूप 18
2. सेवा पुस्तिका (सेवा पुस्तिका में मृत्यु की तारीख दर्शित की जाएगी)

प्ररूप 20

(नियम 81(2) देखिए)

सेवा निवृत्त सरकारी सेवक की मृत्यु पर किसी सदस्य (पति/पत्नी से भिन्न) को कुटुंब पेंशन मंजूर करने वाले पत्र का प्ररूप

सं.....

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग, कार्यालय

तारीख.....

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी

विषय — बालक/बालकों/आश्रित माता-पिता/निःशक्त सहोदर (भाई-बहन) को कुटुंब पेंशन का दिया जाता।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय/विभाग के/की श्री/श्रीमती..... मृतपूर्व..... (पदनाम) को उसकी सेवानिवृत्ति पर दिनांक..... से..... रूपरेखा की पेंशन मंजूर की गई थी।

2. इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि श्री/श्रीमती..... की मृत्यु..... को हुई है और उसने अपनी मृत्यु के समय कोई भी विधवा/विधुर नहीं छोड़ी/छोड़ा किंतु निम्नलिखित उसका उत्तरजीवी था/थे

क्रम संख्या	नाम	जन्म तारीख	पता	मृत पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	क्या किसी निःशक्तता से पीड़ित है	वैवाहिक प्रास्थिति

3. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के निबंधनों में कुटुंब पेंशन की रकम श्री/कुमारी/श्रीमती..... को संदेय हो गई है। कुटुंब पेंशन/अवयस्क/मानसिक निःशक्त बालक की ओर से श्री/श्रीमती..... को संदेय हो गई है जो नामनिर्देशित/संरक्षक है।

4. श्री/कुमारी/श्रीमती..... को..... रुपये प्रतिमास की कुटुंब पेंशन दिए जाने की मंजूरी एतद्वारा दी जाती है। कुटुंब पेंशन तारीख..... से प्रभावी होगी और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसार धार्य होगी।

5. कुटुंब पेंशन शीर्ष..... को विकलनीय होगी।

6. इसके साथ अग्रेषित संलग्नकों की और आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

7. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति की जाए और इस मंत्रालय/विभाग कार्यालय को सूचना दी जाती है कि कुटुंब पेंशन के संदाय संबंधी आवश्यक अनुदेश कुटुंब पेंशनभोगी को संसूचना के अधीन संबद्ध संवितरण प्राधिकारी को जारी कर दी गई है।

भवदीय

कार्यालय अध्यक्ष

संलग्नकों की सूची-

1. प्ररूप 14 (जांच सूची के साथ)

प्ररूप 21

(नियम 81 (2) देखिए)

कुटुंब पेंशन पाने वाले की मृत्यु अथवा अपात्रता पर कुटुंब के अन्य व्यक्ति को कुटुंब पेंशन संस्वीकृत करने के लिए पत्र का प्ररूप

सं.....

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग, कार्यालय

तारीख.....

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी

.....

.....

विषय — कुटुंब पेंशन पाने वाले की मृत्यु या अपात्रता पर कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती..... (जो इस इस मंत्रालय/विभाग कार्यालय में (पदनाम) थे/थी के (नातेदारी) श्री/श्रीमती/ कुमारी को पी पी ओ.सं..... द्वारा तारीख..... से रुपये के कुटुंब पेंशन के संदाय को प्राधिकृत किया गया था।

2. इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री/श्रीमती..... तारीख..... को के कारण मृत्यु हो गई थी/कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं है।

3. मृत सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के कुटुंब के उत्तरजीवी सदस्य निम्नलिखित हैं —

क्रम संख्या	नाम	जन्म तारीख	पता	मृत पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	क्या किसी निःशक्तता से पीड़ित है	वैवाहिक प्रास्थिति

4. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के निबंधनों में कुटुंब पेंशन की रकम श्री/कुमारी/श्रीमती..... को संदेय हो गई है। अवयस्क/मात्रसिक निःशक्त बालक की कुटुंब पेंशन श्री/श्रीमती..... को संदेय हो गई है जो नामनिर्देशित/संरक्षक है।

5. श्री/कुमारी/श्रीमती..... को रुपये प्रतिमास की कुटुंब पेंशन दिए जाने की मंजूरी एतद्वारा दी जाती है। कुटुंब पेंशन ता..... से प्रभावी होगी और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसार धार्य होगी।

6. कुटुंब पेंशन शीर्ष के नामे डाली जाएगी।

7. इसके साथ अप्रेषित संलग्नकों की और आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

8. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति की जाए और इस मंत्रालय/विभाग कार्यालय को सूचना दी जाती है कि कुटुंब पेंशन के संदाय संबंधी आवश्यक अनुदेश कुटुंब पेंशनभोगी को सूचना के अधीन संबद्ध संवितरण प्राधिकारी को जारी कर दी गई है।

भवदीय

कार्यालय अध्यक्ष

संलग्नकों की सूची

1. प्ररूप 14 (जांच सूची के साथ)

प्ररूप 22
(नियम 81(14) देखिए)

पेंशनभागी की मृत्यु पर अवशिष्ट उपदान दिए जाने के लिए आवेदन का प्ररूप
(प्रत्येक दावेदार द्वारा पृथक् रूप से भरा जाए)

1. (i) पेंशनभागी का नाम जिसकी बाबत अवशिष्ट उपदान का दावा किया गया है।
(ii) अंतिम बार किस कार्यालय/विभाग/मंत्रालय में सेवा की गई थी।
(iii) वतनभागी की सेवानिवृत्ति की तारीख
(iv) वतनभागी की मृत्यु की तारीख
(v) पेंशनभागी की पीपीआ संख्या, यदि लागू हो

2. दावेदार (दावेदारों) का नाम और अन्य व्योरे -

क्रम संख्या	नाम	जन्म तारीख	मृत पेंशनभागी के साथ नातेदारी	डाकपता
1				

3. यदि दावेदार अवयस्क है/हैं या मानसिक मंदता सहित मस्तिष्क के विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है/हैं तो संरक्षक का व्योरा -

नाम	जन्म तारीख	अवयस्क के साथ नातेदारी	मृत पेंशनभागी के साथ नातेदारी	डाकपता

4. खाता संख्या, नाम और बैंक की शाखा का बी एस आर कोड जिसमें रकम जमा की जाती है।
5. मृत पेंशनभागी को मंजूर की गई मासिक पेंशन (तदर्थ वृद्धि सहित यदि कोई हो) की रकम /सेवा उपदान
6. मृत पेंशन भागी द्वारा प्राप्त सेवानिवृत्ति उपदान की रकम
7. मृत्यु की तारीख तक मृतक प्राप्त की गई पेंशन (तदर्थ वृद्धि सहित, यदि कोई हो) की रकम /सेवा उपदान
8. यदि मृतक ने अपनी मृत्यु से पूर्व पेंशन का कोई भाग संराशित कर लिया था तो पेंशन का संराशित मूल्य
9. मद 6, 7 और 8 का योग।
10. परिलब्धियों के बावजूद गुने के बराबर मृत्यु उपदान की रकम
11. दावा किए गए अवशिष्ट उपदान की रकम अर्थात् मद 10 और 9 के सामने दर्शित की गई रकम के बीच का अंतर

संलग्नक - राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा सम्पक रूप से
अनुप्रमाणित हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप के नमूने

दावेदार /संरक्षक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का नमूना
मोबाइल/टेलीफोन नं.
आयकर के लिए स्थायी लेखा संख्या (पैन).....
आधार संख्या, यदि कोई है.....

नामों और पूर्णपत्तों सहित दो साक्षियों के हस्ताक्षर

- (i)
- (ii)

[illegible]

उत्तरांचल 2. राजधानी सारकारी सेवा, द्वारा सारवा, रण रा अनुप्राणित इतराभासी व सो नमूना पूरा, मत्र मे प्राप्ता धाम् जागम। सारवा, रण सो अनुप्राणित धाम् साथ मे अगुटे और संगली छप गली प्रत्येक सो पक्षिया प्राप्ता गी जाग सो अपन नाम इस्ताहासत वचन के लिए साक्षर नहीं है, शारीरिक निश्चयता के कारण यदि ऐसा व्यक्ति धाम् हाथ व अगुटे और संगली छप देग मे असमर्थ हैं तो वह बाहिने हाथ का अंगूठा और संगली छप दे सकेगा। जहाँ सरकारी सेवक दोनों हाथ सो नमूना तः धाम् गा रर गी संगली की छप दे सकेगा जिसे सरकारी सेवक द्वारा सम्भव रण सो अनुप्राणित होना चाहिए

प्ररूप 24
(नियम 32 देखिए)
पेंशन के लिए सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्र का प्ररूप

सं.....
भारत सरकार
.....मंत्रालय
.....विभाग, कार्यालय

तारीख.....

प्रमाणपत्र

लेखा अधिकारी के परामर्श से यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पदनाम..... ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार तारीख..... को..... वर्ष..... मास और..... दिन की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। सेवा का सत्यापन उसके सेवा दस्तावेजों के आधार पर इस समय प्रवृत्त अर्हक सेवा संबंधी नियमों के अनुसार किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 32 के उपनियम (1) और (2) के अधीन किया गया सत्यापन अंतिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी शर्तों को जिनके अधीन सेवा पेंशन के लिए अर्हित होती है, शासित करने वाले किन्हीं नियमों और आदेशों में तदनंतर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो।

अर्हक सेवा के ब्यौरे

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग, कार्यालय का नाम	तारीख से	तारीख तक	अर्हक सेवा की अवधि

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा मुहर

सेवा में,
श्री.....
(नाम और पदनाम)"

[फा. सं. 1/19/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (इ)]

सु. चौधरी
(सुजाशा चौधरी)
उपसचिव

टिप्पण — मूल नियम का.आ. सं. 934 तारीख 1 अप्रैल द्वारा प्रकाशित किए गए थे। नियमों का चौथा संस्करण जुलाई, 1988 तक शुद्ध किया गया था जिसे वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था। उक्त नियम नीचे दी गई अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-

- 1) का. आ. 254 तारीख 4 फरवरी, 1989
- 2) का. आ. 970 तारीख 6 मई, 1989
- 3) का. आ. 2467 तारीख 7 अक्टूबर, 1989
- 4) का. आ. 899 तारीख 14 अप्रैल, 1990
- 5) का. आ. 1454 तारीख 26 मई, 1990
- 6) का. आ. 2329 तारीख 8 सितंबर, 1990
- 7) का. आ. 3269 तारीख 8 दिसंबर, 1990
- 8) का. आ. 3270 तारीख 8 दिसंबर 1990
- 9) का. आ. 3273 तारीख 8 दिसंबर 1990
- 10) का. आ. 409 तारीख 9 फरवरी, 1991

- 11) का. आ. 464 तारीख 16 फरवरी, 1991
- 12) का. आ. 2287 तारीख 7 सितंबर, 1991
- 13) का. आ. 2740 तारीख 2 नवंबर, 1991
- 14) सा.का.नि. 677 तारीख 7 दिसंबर, 1991
- 15) सा.का.नि. 399 तारीख 1 फरवरी, 1992
- 16) सा.का.नि. 55 तारीख 15 फरवरी, 1992
- 17) सा.का.नि. 570 तारीख 19 दिसंबर, 1992
- 18) का. आ. 258 तारीख 13 फरवरी, 1993
- 19) का. आ. 1673 तारीख 7 अगस्त, 1993
- 20) सा.का.नि. 449 तारीख 11 सितंबर, 1993
- 21) का. आ. 1994 तारीख 25 सितंबर, 1993
- 22) सा.का.नि. 389 (अ) तारीख 18 अप्रैल, 1994
- 23) का. आ. 1775 तारीख 19 जुलाई, 1997
- 24) का. आ. 259 तारीख 30 जनवरी, 1999
- 25) का. आ. 904 (अ) तारीख 30 सितंबर, 2000
- 26) का. आ. 717 (अ) तारीख 27 जुलाई, 2001
- 27) सा.का.नि. 75 (अ) तारीख 1 फरवरी, 2002
- 28) का. आ. 4000 (अ) तारीख 28 दिसंबर, 2002
- 29) का. आ. 860 (अ) तारीख 28 जुलाई, 2003
- 30) का. आ. 1493 (अ) तारीख 30 दिसंबर, 2003
- 31) का. आ. 1487 (अ) तारीख 14 अक्टूबर, 2005
- 32) सा.का.नि. 723 (अ) तारीख 23 नवंबर, 2006
- 33) का. आ. 1821 (अ) तारीख 25 अक्टूबर, 2007
- 34) सा.का.नि. 259 (अ) तारीख 31 मार्च, 2008
- 35) का. आ. 1028 (अ) तारीख 25 अप्रैल, 2008
- 36) का. आ. 829 (अ) तारीख 12 अप्रैल, 2010
- 37) सा.का.नि. 176 तारीख 11 जून, 2011
- 38) सा.का.नि. 928 (अ) तारीख 26 दिसंबर, 2012
- 39) सा.का.नि. 998 (अ) तारीख 27 दिसंबर, 2012